





# सूखो समुद्र



राजस्थानी काव्य

# मनुष्यो रंमदर



भानसिंह शेखावत 'मरुघर'

मोल : पचास रुपिया/पैलो संस्करण : 1986/प्रकासक : भूमिका  
प्रकाशन, डाकखाने रै निडै, सीकर रोड़, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)  
राजस्थान / शाखा कार्यालय : 3/43 मालवीय नगर, जयपुर  
(राजस्थान) / आवरण : वी. पी. सिंह / मुद्रक : एम. बी. प्रिन्टर्स,  
जयपुर (राजस्थान)

---

**SOOKHO SAMDAR (Rajasthani Poetry)**

By Bhan Singh Shekhawat 'Maroodhar'

Price : Rs 50.00

राजस्थानी भाषा रा साबा हिमायतियो मे मर्ल \* \* \* \* \*









टांचीजेडो फिर मानखो  
किण न मन री पीड़ बताऊं ।

जिण सू बात करां वो ही आ,  
सीधो हाथ कठां में घाले ।  
दुनियां री नोटंकी बीचै,  
खींचताण, खुसहा चाले ॥

मंगाई रा गवै मरसिया,  
में अब कुण सी राग सुणाऊं ।  
टांचीजेडो फिर मानखो,  
किण न मन री पीड़ बताऊं ॥

कुटम कबीले हाळो गाडो,  
बोलण लाग्यो आज चरडूचूं ।  
मूंग-मोठ में फरक धिकै, पण,  
घणा निकळग्या अवे करडू कूं ॥

बिगडग्यो हे सगळो तीवण,  
ई न अडे कैयां लगाऊं ।  
टांचीजेडो फिर मानखो,  
किण न मन री पीड़ बताऊं ॥



१. आटी डोर कसली बिणजारी ।  
छेकड़ आगी मजला थारी ॥

२. चुगचुग मेल्या मोती प्राणक,  
लूठी-लाठ लदाई बाळद ।  
सात समन्दर पाट गई पण,  
मिट्यो नही ओ मत्त रो दाळद ॥

३. होठ उदासी तज दे गजवण,  
पळ दो पळ हंसल बिणजारी ।  
आटी डोर कसली बिणजारी ।  
छेकड़ आगी मजला थारी ॥

४. जुगा-जुगा रा गुला है अं,  
आयु जका पाघरा जासी ।  
हिये अळोच करे क्या खातर,  
गई फौज राण्यां अर दासी ॥

५. करम कमाई सांगे जासी,  
दुनियां में जस ले बिणजारी ।  
आटी डोर कसली बिणजारी,  
छेकड़ आगी मजला थारी ॥

□

स्याणप-सांच समद में डूबी,  
फुंधोळ चढगी कुटलाई ।  
गोज्यां में संपळोटा पळग्या  
माया री मोटी अवखाई ॥  
पण भी पडसी मन जीवणो

बातां में, बांधेडो होर्यो,  
देखो हाथ हाथ न खाव ।  
कद तांणी श्रै बच टापरा,  
खुद रो चूलो लाय लगाव ॥

सेज सिराणें सांप पीवणो  
पण भी पडसी मन जीवणो ॥

मंगरां ऊपर फिर कंसळा,  
कानां मांयने बूगां बढगी ।  
पळम भूठ री चतरी कोनी,  
आज मानखै मकडी चढगी ॥

दोरो, फाट्यो पूर सीवणो,  
पण भी पडसी मन जीवणे ॥



आं टूटेडै हाथां में, तूं वीणा ब्यू दे दीनी  
गूंगो-गैलो आच्छघो हो, तूं वाणी ब्यू दे दीनी

तूं दुखड़ा दीन्यां, म्हानै ।  
मैं फुलड़ा जाण्या वांनै ॥  
तूं विपदा भेजी घणी घणी ।  
मैं वां नै भी मानी अपणी ॥

आं उजड़ेडै बागां नै, तूं कोयल ब्यू दे दीनी

मांया रै कादैं में फंसगयो ।  
दिन दूणो पीदैं में घंसगयो ॥  
गूंगा री घुरी सूं भाग्यो ।  
लोभ्यां रै जाळें में आग्यो ॥

इण थाकेडै मांभी नै, तूं सांसा ब्यू दे दीनी

देख के फड़ां पळगयो कीडो  
घुण थोथो कर दीन्यो हिवडो ॥  
पेट विलायां खेले कब्वडी ।  
घरां ऊंदरां घाळें लड्डी ॥

इण मुरभायें दरखत नै, तूं कूपळ ब्यू दे दीनी

आभै ऊपर सूं फेंक दियो ।  
घरती रा घोरां झेल लियो ॥  
रमतिया खोस्या वाळपणें ।  
जोवन ठुकरायो जणें जणें ॥

इण घडो स्यात री सांसा नै, तूं वांसी ब्यू दे दीनी  
गूंगो-गैलो आच्छघो हो, तूं वाणी ब्यू दे दीनी ।



जीवन रा सपना गाइया  
 दुनियां रे मुसांण में ।  
 अबै, काई मेल्यो भाया,  
 मुरदां री पिछाण में ॥

आंगळिया पेरवां घसग्या उमर जोड़तां ।  
 आठूं पैर वीत्या म्हारा नूं तोड़ता ॥  
 फाटेड़ी फोट सा अब रुळता फिरां ।  
 मौत आवण सें पैत्यां कैयां मरां ॥

अगाऊं जागां है 'बक'  
 ठालां रै विवाण में ।

काया रै काचै आंगणी, उमर रा बुहारू खोज ।  
 पीवर्ण सांप सी ऊभी, सांसा पर टिगरिया फौज ।  
 म्हारे च्याहमेर धुमै करजदाता कांवळा ।  
 अगाऊं अंधेरो दीखै, आख्यां अगै भांवळा ॥

डील नै वांध्यां फिरू  
 मांगेडै पिलाण में ।

पेटहाळी कोथळी में ऊंदरा करे है दीड़ ।  
 'डिगरी' रै घुंवासो लाग्यो, नौकरी नै कठै ठोड़ ।  
 कालेजी पणघट पर दीनी सिक्सा री सुराईं तोड़ ।  
 'इंटरव्यू' री धंमचक में, चंमचां री हांडी नै फोड़

भागती आसावां वांधी  
 वेवसी रै ठांण में ।  
 अबें काई मेल्यो भाया  
 मुरदां री पिछाण में ॥

दुटेड़े तारां री सीकी  
किण रा खोज बुहारें ।  
विछियोड़ी फुलड़ां री पळकां,  
किण रो पंथ निहारें ॥

भंवरा सी उड़'री है गैली,  
किण रें मन री पीड़ ।

परभाते री अक फूंक,  
कुण आभे दीप बुभावे ।  
किरत्यां वांदरवाळ टांग,  
कुण रात्मूं म्हैलं सजावे ॥

अक फूंक में घटाटोप री  
कुण कर देवे छोड़ ।

सावणतीजां 'इन्दरघणक' री  
लहुर्यो कुण ओढ़ावे ।  
रुसेड़ी घस्ती रें खातर,  
कुण सिजारो ल्यावे ॥

हळकी सी फुहारां धोवे,  
किण पांखी री नीड़ ।  
भंवरा सी उड़'री है गैली,  
किण रें मन री पीड़ ॥



फुलड़ा छोड़ ओस रा आसू  
कठ गई दुख्यारण रात ।

आज उसांसा लूवां वणगी,  
बणी बादली कजली आंख ।  
छेल भंवर बेदरदी सूरज,  
उडै लगायां किरणां पांख ॥

अळसायेडी कळी बतावै,  
मून धरयां हिचडै री वात ।  
फुलड़ा छोड़ ओस रा आसू  
कठ गई दुख्यारण रात ॥

तारां री चूनड समटीजी  
भगसेडो चांद री टीको ।  
किरत्यां नोलखहार पुराणो,  
परभाते लाग है फीको ॥

दुख दुनियां रा अजब पावणा,  
विना बुलाये आव स्यात ।  
फुलड़ा छोड़ ओस रा आसू  
कठ गई दुख्यारण रात ॥





मैं घोरां रो लाल लाडलो,  
 घरती है जामण म्हारी ।  
 आक-खेजड़ा साय-संगलिया,  
 बाळू है केसर क्यारी ॥

बिजळी चिमकें बादळ गरजे,  
 काली कळायण उमड्घावे ।  
 पुन बवे पुरवाई, मनडो  
 मीरां री ज्यूं हरखावे ॥  
 हळियो हांक रास फटकारुं,  
 द्यूं बळदां रें टिचकारी ।

हरियाळी सूंजमीं हवोळी,  
 नाडी सूं पाणी छळकें ।  
 साय करे नीनांण करसणी,  
 धुंघट से मुधरी मुळकें ॥  
 भिरमिर भिरमिर बरस बादळी  
 सावण-रुत कामणगारी ।

टीचे पर पांकेड़ा सीट्टा  
 भाला देय - बुलावे ।  
 मुळा रा मतीरा मोठा,  
 देख लाळ टपक्यावे ॥  
 काचर वेर काकडी चाखो,  
 ग्वारफळी री तरकारी ।



काचा कांदा वांसी .रोटी ।  
टिगर मांदा फटी लंगोटी ॥  
कूचा हाळी छांव भायला ।  
ओ है म्हारो गांव भायला ॥

गीली आंख्यां, सूकी हाडी,  
वळती लूवां, सूकी नाडी ।  
काळ खायग्यो किलकारी नै,  
सूनो पणघट गांव, गुवाडी ॥

हिवडं मोटा घाव भायला ।  
ओ है म्हारो गांव भायला ॥

दूध-दही नै तरसै टावर,  
भूखा मरता मरग्या डंगर ।  
करै कांवळा खीचातांणी,  
गांव गौरवै पड्या जिनावर ॥

कागो बोलै कांव भायला ।  
ओ है म्हारो गांव भायला ॥

पटवारी नित सींव तुडावै,  
भाई-भाई रा सिर फुडवावै ।  
कागद बदलै, कुडकी काठै,  
नाज पकेडा खत भिळावै ।

आछी लागी पांव भायला ।  
ओ है म्हारो गांव भायला ॥

सूकखोर स्यूं गांव लुटीजं,  
फुलस्यां हाळी डंग पुजीजं ।  
जे ना देवा दान दिच्छणा,  
पाणै वैठ्यां वूंग कुटीजं ॥

दे मूच्छ्यां रै ताव भायला ।  
श्री है म्हारो गांव भायला ॥

नेणा टप टप टपके पाणी,  
किण नै कैंयां मन री का'णी ।  
कोड्यां में काया विक'री है  
मरजादा री घूळ'र घांणी ॥

ल्हादे कोनी ठांव भायला ।  
श्री है म्हारो गांव भायला ॥

छोरो खाड़ी देस कमावै ।  
कांकी वंठी काख पदावै ।  
काको लेय घेतळो घूमे,  
माइं मिनखां टांग फिरावै ॥

होवै 'सोटां-न्याव' भायला ।  
श्री है म्हारो गांव भायला ॥

आज मानखो 'विगत भूलग्यो  
 फँसन : में पलटायो मन ।  
 आतमग्यान भी वोट विसरग्यो,  
 कोइयाँ में लचकायो तन ॥

पुरवाई पिच्छम सू वहसी ?

डांवरगी' है आज फिड़कत्यां  
 फूल " फूल नें सूँव ।  
 दाह में दुधणी विक'री है  
 दूध - गंडकड़ा चूंध ॥

कैयाँ अच मरजादा रहसी ?

मैगी मिनख, मांठ, मरजादा,  
 मोभ्यो. भाछी घोई ।  
 ऊत गई रा लाग्या टोरा,  
 छोरां बीसी बोई ॥

भाग पीरघां काई वहगी ?



अरै बटाळ आन गांव रो  
गेलो कोई न जाणै ।  
फिरै नांव रो लिया लालटण  
खुद नं नही पिछाणै ॥

अक-आघ ही डगर देखली  
संगळा उजड़ भागै ।  
आखी दुनियां पड़ी घेळ में,  
विरळा साधक जाणै ॥

खुद री माटी में सोक्युं है  
घर घर माटी क्यूं छाणै ।

खुद जायां ई पार पडैली,  
देख्यां जका वतावै कोनी ।  
जकां डगर पर पग मेल्यो है  
मुड़ कर पाछा आवै कोनी ॥

परबीती कैवणियां बोळा,  
घरबीती ना जाणै ।

मोह माया री बगो गांठळी,  
मन रो बोझ घटावो ।  
मन भोळी सूं प्रीत लावणा,  
घर घर मांय वंटावो ॥

जुग नीदा सूं जाग बावळा  
भरम भासलो क्यूं ताणै ।



हेली ! म्हारो दरद है जुगां पुराणो ।  
 ज्युं ज्युं दाभू, . . . . .  
 ज्युं ज्युं दाबू, . . . . .  
 दुखे घणो कुराणो ॥

सबरी बोरिया बाखण लागी ।  
 मीरा भगन होय नाचण लागी ।  
 सैन भगत संकळाई देखी,  
 करमां खीचडो रांधण लागी ॥  
 खडेघो कवीरो बीच बजारां,  
 जाणूं नही रे पिछाणू ।  
 म्हारो दरद है जुगां पुराणो ॥

दरद भरी आ मस्ती म्हारी ।  
 कांटां में लागी फुलवारी ॥  
 गरमी, सरदी, बिरखा आंधी,  
 सांभ सुबे दुखे दोपारी ॥  
 पीड़ मिटेली, प्रीतम देख्यां,  
 यां स्यूं कांई दुराणो ।  
 म्हारो दरद है जुगां पुराणो ॥

□

देह्या सै रा डोळ भायला ।

पांच वरस स्युं पखी आवै ;

जिण रै हाथ पडै तिरज्यावै ।

सत्ता री संकळाई चढज्या,

म्हैला बेंठ्या काळ पदावै ॥

हो री गंडगोळ भायला ।

देह्या सै रा डोळ भायला ॥

सेढो समे जकां सुं कोनी,

खुरेसी आज समाळ्या बेंठ्या ।

दिल्ली जा जमना में न्हाया,

सीत सीत ठाकुरजी टूठ्या ॥

धोयो सै रमभोळ भायला ।

देह्या सै रा डोळ भायला ॥

बोल भायला ! कैयां ? काई ??  
 पगां उभाणा, पड़्या आयटण,  
 कांटां गडवा जागां कोनी ।  
 भूत लांगटी खोस रैया है,  
 डील उघाडा गाभां कोनी ॥  
 भूख जकां नें रोटी कोनी,  
 रोटी दाळा भूख गमाई ।  
 बोल भायला ! कैयां ? काई ??

"भार्यभट्ट" आकासां उड़यो  
 नीचें भसागाडी चाले ।  
 बीस तल्लां री हेली आगे  
 मंगतो भूखो लड्डी घाले ॥  
 गघा पंजोरी खाय रैया है,  
 पाडां आगे वीण बजाई ।  
 बोल भायला ! कैयां ? काई ??

जिणरी लाठी भेंउ उणी री,  
 गांव गांव में जूता चाले ।  
 जातवाद री जे जे हो री,  
 सटके थारो काम कडाले ॥  
 घर घर बंदर बांट रैया है  
 देख रैया है जगत विलाई ।  
 बोल भायला ! कैयां ? काई ??

चंटे टीवड़ी छोटी ॥ छोरी,  
 बेगो पीळा हाथ कराऊं ।  
 बाबो पड़यो खांसतो कंबे,  
 फेरा देख चाये मरज्याऊं ॥  
 बिना दायजे जान अपूठी,



देख्या.सै ७

पांच बरस

जिण रै हः

सत्ता री

म्हैला बंट

हो'री

देख्या सै

सेडो हा

धुरसी ४

दिल्ली

सीत मी

धोयी रै

देख्या सै

११

उडै बखत रा कागद फर फर ।  
लिखर्यो हूं सांसा रा आखर ॥

रोज बणाऊं ताणा बाणा,  
हर्षा हुवै नित घाव पुराणा ।  
नैणा री दुवात सूखगी,  
कठै दिखै स्याई रा दांणा ॥

कद ताणी मै करूं रुखाळी ।  
मांड्या खोज घूळ रै ऊपर ।

क्यूं दिवलै रै फूंक लगावै,  
क्यूं फुलड़ा नै मसळ बगावै ।  
सूघण दे सोरम सगळां नै,  
नाका टूंपो मतां लगावै ।

उडवा दे तूं भंवर फिड़कली,  
बागां बीच बणा मत कन्वर ।



वनड़ी री 'मैदी सूक्या'ई ।  
बोल भायला ! कैया ? काई ??

डगमग नाड हाल' री वाने,  
बाळ कुवंर क्यू परणाई ।  
ऊंट गले में लरड़ी वांधी,  
काई करी, ग्रा पुन्याई ॥  
जोवन और बुढापो सांगे,  
बिधवा रं मुं सळवंट भाई ।  
बोल भायला ! कैया ? काई ??

बुढळियं रो, घोसर कीन्यो,  
जीम जूठ मुसटंडा चात्या ।  
के वंतरणी पार, करलो,  
खेत बेच कर लाडू घाल्या ॥  
पेदमाळा पग, करके, क्यू  
नाता टावरा छुरी चलाई ।  
बोल भायला ! कैया ? काई ??

आटे मांही लूण, बतॉयो,  
ब्याज-ब्याज ले भरी वखारी ।  
टैक्स चोर कर मिनर चिणायो,  
वाह वाह नामी साहूकारी ॥  
सौ सौ चूसा, जीम जूठ कर  
हज करवा नें जाय बिलाई ।  
बोल भायला ! कैया ? काई ??

उहँ बखत रा कागद फर फर ।  
लिखर्यो हूँ सांसा रा आखर ॥

रोज बणाऊं ताणा बाणा,  
हर्षा हुवँ नित घाव पुराणा ।  
नेणा री दुवात सुखगी,  
कठं दिखे स्माई रा दांणा ॥

कद ताणी में करूँ रूखाळी ।  
मांड्या खोज घूळ रे ऊपर ।

बयूँ दिवलै रे फूंक लगावै,  
बयूँ फुलडाँ नै मसळ बगावै ।  
सूँघण दे सौरम सगळाँ नै,  
नाका टूँपो मतां लगावै ।

उडवा दे तूँ भंवर फिडकली,  
बागां बीच बणा मत कब्बर ।



मोत रो घाल गळें में हार,  
 देखर्यो माया रो जंजाळ ।  
 जोत सुं मिलगी जाकर जोत,  
 माटी में हंस खलें कंकाळ ॥  
 ॥ भरेखो उमरासं व्र मिटकीली  
 हवे है छण छण में खाली ।  
 ॥ उपासु हासु जो ननु मरुतु  
 जीवन रो खाली ॥  
 ॥ मंगो ज्यो अपि घेस मरे यहे ही ने केतु  
 टटगी पानां पैल्यं डाळ ।  
 ॥ अरिये देल्लो मंगो छेळं  
 तितलियां छोड दियो है वाग ।  
 ॥ हासु काम न पहिले पके  
 के पळे भेडगी काचो भांग ॥  
 ॥ घोले हे इंकि फोड मित्रे बान्ना  
 कोयल आव गावे अल पताळ ।  
 ॥ एक काम पाण नहि पाण



बीती -बात समदरां, डंगी  
के राख्यो पिसतावे में ।  
कांदा छोल, छूतका लाधे  
के मेल्यो, पसरावे में ॥

फेर निसासा गरे क्यूं ?

गळ कर बीज रळै माटी में  
अणगण बीच बणावा नें ।  
हंसता हंसता फूल झडै ला,  
बागा कळी खिलावा नें ॥

फेर उदासी चैरे क्यूं ?

अंधियारै नें दूर भगावण,  
बाती देह जळावें ।  
दुनियां नें मोती पैरावण,  
सीपी पेट फडावें ॥

अग किस्तूरी हेरे क्यूं ?



लांलां री नथ, पैर, सांभ  
घण आयणी सूं आई ।  
बांध घोरलो सुरजी रो,  
मांग सिंदूरी भरल्याई ॥

मैं बैठ उड़ीकूं पिव नैं ।

काना-बाती करे आज अ,  
सोने सूं लादेड़ा वादळ ।  
हरखीजेड़ी मावें कोनी,  
नन्दी होगी घणी उछांछळ ॥

मैं कीकर थामूं हिव नैं ।

चलें वायरो तितरपंखी,  
बांदरवाळ सजावें ।  
तारा री भिळमिळ वात्यां सूं,  
दिवला रात जगावें ॥

मैं वाती ढूंढूं दिव नैं ।



ओ स अर मिनख रा आंसू  
अकै साथ बवैला ।

बिन केवट री नव म्हारली  
लहरां बांध सकै कोनी ।  
अरै हिवालै रो पाणी भी  
समदर लांध सकै कोनी ॥

डिबळी अर समदर रो पाणी  
अकैकार हुवैला ।

बाती देह वाळती बोली  
“दिवला अब मैं जाऊं ।  
काया में काई मेल्यो है,  
कैयां कीट समझाऊं ॥”

बिना बिघायै मोती कीकर  
नोलखहार बगैला ।

घोड़ी ऊपर चढ़कर आया  
काठी सूता जासी ।  
कदतांणी कळियां काची है  
छेवट तो मुरभासी ॥

बिन टूटै अं फून बाग रा  
कीकर देव चढैला ।





तू बांधी है पायल यग में  
अव में छम छम नाचूला ।

पूणी पीन्दी आज पिनारै,  
तार तार है सांसा ।  
हिवड़ डोरी बधि कनख  
नै उड़ा दियो आकासा ॥

भूल भणाई आज जगत री,  
सबद प्रीत रा बांचूला ।  
अव में छम छम नाचूला ॥

मनडो निरमळ, तनडो हळको  
कुण समभै अंतस री काणी  
देख्या जका वतावै कोनी,  
जग री छडी रीत पुराणी ॥

नैणां जोत थारली जमगी-  
सुरता सुरमू खाचूला ।  
अव में छम छम नाचूला ॥

जो मं जुं फाह कर किमि मिंम  
चरो अंक अंक ल्या कानि

घाट घाट रो पाणी चारुयो  
मन रो वास वरुयो कानो ॥  
समदर रो पाणी भी खारो ॥

इधरुवो सुध वगिका वीच

मन रो भुंवरो उडतो डोलें ॥  
साकरो तो खल जावें, पण  
बेडी रो निका कुण खोलें ॥

पसंतात्रे पइमोतीरमार्गो ॥

मिनख जमारो वाय्यापडंगो ॥  
इण स कयां पिड छ टवि ॥  
परलो यार उतरणो हे, पण

कुणसे हाथां नाव चलावं ॥  
हाथी मंडो किरो इ कपीम  
हाथी मंडो रो गारो ॥

मुळवयां मियं फूलविजां म्फरी  
इतरें कंठः रूसीरुडमव त्रिं  
असवं कुवां हांगुं जडे विं  
कुण सुमं लीं नें समप्रतिगंती  
लादथां फिरं करम रो भारो ॥

लिळमडी हागळ तं ई हांरु  
समदरुं किनडुं उभूँ प्रतिसधुं  
लियां सूकी पाकी धागळ ॥  
कीडी कंयां डार डाकं,  
मनडें मांय भरम री आगळ ॥  
श्यान बखारी बडबो दोरो ॥

घारी मीठी वातां सूं  
म्हारी प्यास बुझूं कोनी ।

वाळपणं में सुपन संजोया  
मळ जोवन में मिटा दिया ।  
खुद रै हाथां दिवळा चास्या,  
भाग भगूळघै बुझा दिया ॥

सुपना भूँठा, दिया ननै, पण  
ग्यान उजास बुझूं कोनी ।

न जाणै कितरी बर मनै  
मरघट सूं मुरदा बतळाया ।  
न जाणै कितरी बर अरै  
मजलां तण पगल्या दौड़ाया ॥

माया रो बुरको हटघा विना  
मनडै सन्यास मिलै कोनी ।

त्रिस्णावां नै दुर भगा, जद  
करी भायली दाळद सूं ।  
चल्यो टंढीरो लाद जगत सें  
विणजारै री बाळद ज्यूं ॥

करवा दे तूं जगत टिसकली  
म्हारी आस मिटै कोनी ।



अळसाये होठां-में;  
घुट री हैं सांसा ।  
छीजेड़ हिवड़ में  
गड'री हैं फांसा ॥

चौमुख दिवलो चास  
घर में कुणसं द्वारें ।

थोधी प्रभिलाखा पाळयां  
ओ डूव रैयो मन ।  
ओढ बखत री अमरबेल,  
अर सूख रैयो तन ॥

सूती हो'री सराय,  
डाकण छुरी पलारें ।

दरद बतावें, सजळ  
सीप सी पळकां सीली ।  
गूंगी काया हो'रो है  
अभं सी लीली ॥

साच सांकड जातां,  
पापी पांव पसारें ।

कैयां वीतं रात कड़कसा  
निबळी सूखी आंत ।

तारा हुया गूमड़ा म्हारे  
चान वाळरघो डील ।  
चिता री भळ, हुई च्यानणी,  
भाळ गडावं कील ॥

चमचेडां री फड फड सुण'री  
वागळ काढे दांत ॥

सूनो डील चाल'री सणपां  
रगत होयगयो पाणी ।  
खुद री छाया हुई ओपरी.  
घर में घल री घांणी ॥

गोवां वीचं गंडक घुसं है  
मिनख लगायां घात ।  
कैयां वीतं रात कड़कसा  
निबळी सूखी आंत ॥



बखत पर-भरोसो करां कद ताणी ।  
मोत रै नेड़ सरकै जिदगाणी ॥

जकां म्हैल चिणाकर छोड़धा,  
सुख सूं सोवण पाया कोनी ।  
हिरण्यां रै खोजां पर चाल्या,  
कदे न बँठ्या ठाया कोनी ॥

भाग भाग कर गोडा तोड़धा,  
देह चरखें ज्यूं बोलण लागी ।  
तेळी रा बळदां ज्यूं चाल्या,  
ऊभा मिल्या उण जागां सागी ॥

अव, जमदत खड़धा फळसै रै कानी ।  
मोत रै नेड़ सिरकै जिदगाणी ॥

खुद रा स्वारथ पूरा करवा  
दूढ लिया है रिस्ता-नाता ।  
पंडां सूं पाटी बंधवावें,  
पाप पथर री ठोकर खाता ॥

घण री चोरी करकै गैला  
बँठ सुई रो दान करै ।  
कळजुग रा दातारी मिनैख,  
जाचक रो अपमान करै ॥

अव तो मंगता भी बाजैला दानी ।  
मोत रै नेड़ सरकै जिदगाणी ॥



घर घर कळैरा बांट लावणा  
 रोज मिनख मरवावै,  
 जे टूट्या हिवडा जोड़ सकै तो  
 तनै मिनख जाणूं ।  
 भ्रोक काचरो भरे कड़ावा  
 दूध फाड़ नाखै,  
 जे फाट्या मनड़ा जोड़ सकै तो  
 तनै मिनख जाणूं ॥

रुसेड़ी 'बीसाखी' बीती,  
 मुरभेड़ी 'केसर ब्यारी' ।  
 सारै देस में लांपो लाग्यो,  
 पड़ी कळै री चिणगारी ॥  
 पड़ पटाका सुरी छोड़णियां रो तो काई घ  
 जे घर घर बळती लाय बूभावै,  
 तनै मिनख जाणूं ।

मंजीत री मरजादा डोलै,  
 मिन्नर में ईसर कंदी ।  
 देवां, री संकळाई पंडा,  
 -वस-सवामणी में देदी ॥  
 दान-पुत्र में पीसा दे सुरगा री टिकट  
 जे घरती सुरग बणा सकै तो,  
 तनै मिनख जाणूं ।

डूंगर चढ़ हेला देवणियो,  
सुद .री गूँज फेर आवैली ।  
नेह नदी बैवैली जद, मन,  
गांठ वरफ सी पिघळघावैली ॥  
पणघट सूं ल्या ल्या गागर तो दुनियां ढोवै,  
जे भागीरथ वण गंगा ल्यावै,  
तनै मिनख जाणूं ।



चेतं भायला ! चेत ।  
 छण-पळ रो मिजमान अरै,  
 मतां कर तूं मोटा पाप ।  
 चांदीं रै टुकड़ा खातर तूं,  
 मतां उल्टी-सीधी भाख ॥  
 घड़ी स्यात रो मेळो,  
 मिट ज्यासी मिनख जमारो,  
 धारै नांव री वच ज्यावली,  
 बस घोभो भर राख ॥  
 चुगै चिडकल्यां खेत ।  
 चेत भायला ! चेत !

उगतो सुरजी देख वांधी,  
 किरणा जियां आसावां ।  
 बार बार मन उडा लेयगी,  
 पापण म्रिग त्रिष्णावां ।  
 भरम सांप री कुंडळी,  
 वीचै फंसग्यो मनडो,  
 किरत्यां ज्यूं दळगी उमर,  
 नित धूळ रा म्हैळ वणावा ।  
 थोथो पाळां हेत ।  
 चेत भायला ! चेत ।

हीरा-मोती घणां पारखी,  
कुण आंकै आंसू रो मोल ।

सम सतायेइं मिनखां नं,  
हिय दिलासा कुण देव ।  
तिरत भाठां रा सहै साथी,  
नाव डूबती कुण खेव ॥

सगळा बाट ताखडी भूठा,  
कुण जाणै हिवडै रो तोल ।

वागां वीचें थोर उपजगी,  
भुळस्याई फुनडां री क्यारी ।  
गले वीचें पडया भिटेरा,  
अव कुण सींचेला पयवारी ॥  
किरडै री ज्युं पळटो खाव,  
कुण माने मिनखां रा कोल ।

किरडै री ज्युं  
कुण माने मिनखां रा कोल

कुण मं , गं किडा  
। ड्रांम किाकळुं  
णकु किाकळुं ताड किळु  
॥ ड्रांमपु ल्याड किाडु पकु

किरडै री ज्युं  
कुण माने मिनखां रा कोल  
॥ किरडै री ज्युं

जे चांद आभे में  
आयो न होतो ।  
थांरी सोगन में  
सारी रात रोतो ॥

जुगां जुगां सूं ढूँढ रियो हूं  
थांरो गुमेड़ो पतो ठिकाणू ।  
कठ वसे है तूं कठ रवं है  
अब कठ, में काई जाणूं ॥

पपीयै साथै जे  
बंधायो न होतो ।

आभे सूं कळायण हटगी,  
होळी सी मुळकं है तारा ।  
चांदइलै री किरणां बांटे  
घर-द्वारै इमरत री घारा ।

धूजी जे थ्यावस  
बंधायो न होतो ।

आकासी गंगा में ढूँढूं  
थांरोड़ी भुसकाती भांई ।  
ढळती रात बतावैलो कुण  
चुप होगी आज पुरवाई ॥

बायरियै सनेसो  
जे ल्यायो न होतो  
थांरी सोगन में  
सारी रात रोतो ॥



जे तूं म्हारै साथ बीठ'र  
गीत ; उगेरै  
तो तने साची कहद्यूं  
सगळी दुनियां सांगै गासी ।

मन रै मायें भरम री आगळ ।  
आंसू भरघां नैण री द्यागळ ।  
दुख रा आंवे रोज लावणा ।  
पगां लागै ग्या लोभ दावणा ।

जे तूं म्हारै सामे बीठ र  
अकर मुसकावै  
तो तने सांची कैवूं हूं  
जग फुलडां सूं भर ज्यासी ।

जगां जगां दुविधां रा बोभा  
रमतियां भी लागै कोजा  
फिरूं भागतो हिरणा खोजां ।  
चोरां खोस लिया अलगोजा ।

जे तूं थारी वंसी  
म्हारै साथ वजावै ।  
तो साची कैवूं दुनियां रा  
सगळा साज साथ वज ज्यासी ।

ना आग लगी ना चिणगारी,  
 थां रै होठां बाळघो माज वदन ।  
 ना लू लागी, ना दोपारी,  
 थांरी बातां बाळघो तन उपवन ॥

चांद टाकियो लेम'र आवे,  
 मून निमन्त्रण थारो ।  
 बैठ उडीकूं रात रात भर,  
 कद आवे प्रीतम म्हारो ॥

कि रत्यां ज्यूं वळ रेंयो उमर,  
 सातरसा<sup>१</sup> ज्यूं घुमे मन ।  
 तारां री भिळमिळ में हूँडू,  
 थां रा नेण कजरारा ॥

भिभर री भण भण में सुणरेंयो,  
 पायल घुंघर थांरा ।  
 तूं निरमोही दीख रेंयो ना,  
 जुगनु ज्यूं भी छण दो छण ॥



थांरी निजरा री डोरी डोरी  
 बंधगयो हिवड़ो ।  
 थांरी जुल्फां में चोरी चोरी  
 फंसगयो मनड़ो ॥  
 काई भांकें अड़ छेड़  
 गजबण आज्या नेहू नेहू,  
 कोई वारील डोलै रो  
 थां में मन अटकयो ।

थारै होठां पर लागी है  
 ताजा फूलां री लाली ।  
 थारै नैणां में लुकी है  
 जोवन दारू री प्याली ॥  
 काई देखै छानै छानै,  
 ज्यादा तड़फा मतना म्हानै,  
 थांरी बिखरेडी लटां में  
 म्हारो मन भटकयो ।

थारै चैरे में दीखै है  
 पूनम चांद री माया ।  
 सुपना में दीखै है गजबण  
 थांरी रूपाळी काया ।  
 म्हारै काळजिये री कोर  
 तू लेय गई चित चोर ।  
 थां रै नैणां री कटारी  
 म्हारो दिल कटगयो ।



तन री हांडी मेल, भिड़ीजी,  
भावां रा ओटाया अंगूर ।  
ग्यान रो मदड़ो लीन्यो सार,  
फिरै तूं हुयो नसै में चूर ॥

लेयग्यो फुलड़ां री सुवास,  
रमाली थारी सांसा वीच ।  
समद री लहरा घालै बांध,  
चांद सूं इमरत लीन्यो खींच ॥

अपूठो आज्या म्हारै साथ,  
संगळिया सूं मत जावै दूर ।

बस्यो तूं नंदी परळै पार,  
छोड दियो अब घोरां रो साथ ।  
जगत रै कादै सूं मनै काढ,  
पकड़लै म्हागे निवळो हाथ ॥

उढादे सुगता री चादर  
फाटग्या गुदड़ीआळा पूर ।



तू प्रीत डोर में बंधी बंधी  
आई ही ताती सांस लियां ।  
जुग जुग सू उभो उडीकूं मैं  
हिवड़ में मीठी प्यास लियां ॥

अधखुली अलसती आंख्यां में  
ल्याईं मुख रो संसार घणो ।  
थारै खातर ही बँठयो मैं  
लाद्यां जीवन रो भार घणो ।

तू बघती आई घणी घणी  
ज्यू बघती जावै बीज रेख ।  
मैं घटतो जाऊं हूं तिल तिल,  
बाँचू 'बे मां' रा लिख्या लेख ॥

तू आज लाज री मूरत ज्यू  
मुळकान भरेड़ी प्रीत लियां ।  
खिलतै जीवन रै बागां में  
कोयल रा मोठा गीत लियां ॥

म्हारै हिव मरु में बहगी,  
तू बण कर गंगा री घारा ।  
तू आई हंसी, हंसावा नें  
मैं लुळ लुळ दीनी मनवारां ॥





जोवन रं खिलतं फुलड़ पर  
मेली त्रिष्णां री चिणगारी ।  
अव वृभं कठे आ लाय बळी  
वरस वरस आख्यां हारी ॥

तूं होळें चाली घायरिया  
आ सिलग न ज्यावें आग घणी ।  
काळें केसां में लुकी जकी  
डस ज्यावें ना वा नागफणी ॥

हिवडें सिलगी कवूं जकी  
उठ री है लपटां छण छण में ।  
नस नस में चवकें चिणगारी  
लागी है आगी तन-तन में ॥

कतरो ही रोऊं-गाऊं पण  
हळको वोभ हुवें कोनी ।  
के करे वापडी कवितावां  
ओ हिव हेमाळ ववें कोनी ॥



जगत में गाभा लिया लिवाड़,  
सांकड़ कैयां आऊं, बोल ।

मेह अंधेरी रात, कळायण  
मंडगी च्यारुमेर ।  
वीजळी पळका मारै स्यात  
उणी सूं दीखै कांई गैल ॥

च्यानणो छण पळ रो बिरथा  
देखस्यूं हिये फिवाड़ी खोल ।

विना विवेडा मोती अणयक  
बैवण लाग्या नैण ।  
अव ना जाण सकूलां, बीरा,  
कुण दोखी, कुण सैण ॥

भलै बुरे नें अव कुंतूला'  
प्रीत ताखड़ी तोल ।



नेह नैणां री नदी में  
सुण स्याणोड़ी! आज न्हाल्या ।  
दीठ छण भर आज दोनूं,  
जिंदगी रा गीत गाल्या ॥

आंसुवां री धार बहसी,  
पागळ हिंये री प्यार बहसी ।  
प्यार रै संसार में,  
छेवट मिलण री ठांव पाल्या ॥

छूटेलो जग री रूपनगर  
ना ल्हादे आपणो भुली डगर ।  
भूल ई माया नगर नें  
आज दूजो घर बसाल्या ॥

उड़मी पंछी छोड बसेरो  
अणजाण बंध तेरो मेरो ।  
भुज बंध सूं बंधिया दोनूं  
जग जेवड़ा आज तुड़ाल्यां ॥



किवाड़ जड़घा अर बीठयो,  
लिखण दो भूली बातां ।  
समझी दुनियां में आय'र  
जुग जुग री ठोकर खातां ॥

दरवाजै आय'र कोई  
म्हारा किवाड़ हलाया ।  
मैं जाण बुढापो उग नै  
दो खारा बैण सुणाया ॥

दरवाजो, खोल'र उग नै  
चःरो में फंर बुलाणी ।  
अरै बुढापो हो कोनी  
वा जाती रैयी जवानी ॥



रिनुराज भावता मुणर  
बनराय बग मुळसाया ।  
पन, पनळइ रै पोळें पतें  
हिवडें रा दरद दिखाया ॥

पाखो उड्या भासं,  
बायो भंरा भरनाया ।  
पन रिमरै बंटे सुवें  
दणें झोनु उड्याया ॥

जरु शिरका बंटी कोनस  
कील बंम सुनाया ।  
रिने कर रितीचै चातक  
हिवडें रा भाव बनाया ।

हा हिवड़ में अरमान घणा  
जो कोई नहीं पिछाण्या ।  
ना दरदी बण'र कोई  
म्हारा साज बखाण्या ॥

केवण भोळी बातां  
हिव लाख बार कह गंरी ।  
आ दो सीपां र मोत्यां  
कर दीनी लाखां डेरी ॥

जो म्हारी आंस्यां सू देखें  
जाण सकैला सारी ।  
अरमान दबाया मिटज्यावं  
दुखिया री दुनियादारी ॥

वेग री ओळखाण  
सं नै ई मरणो ।  
ग्या मगें गमावं  
पळ है लाखीणो ॥

। कैये बड़ रंयी उमर  
ोट समें घटज्यावं ।  
दिन कबडती काया  
दुख रो बोझ उठावं ॥



रितुराज आवता सुण'र  
वणराय वाग मुळकाया ।  
पण, पतभङ्ग रे पीळ पत्त  
हिवड' रा दरद दिखाया ॥

पाखी उड्या आभे,  
वागां भंवरा भरणाया ।  
पण पिजरे बैठे सुत्रे  
नेणां आंसू ढळकाया ॥

आम विरछा वेंठी कोयल  
मीठा बैण सुगाया ।  
पी पी कर तिसिये चातक  
हिवड' रा भाव वताया ।

हा हिक्ड़ में अरमान घणा  
जो कोई नहीं पिछाण्या ।  
ना दरदी वण'र कोई  
म्हारा साज बखाण्या ॥

कैवण भोळी बातां  
हिक्ड़ लाख बार कह गेरी ।  
आ दो सीपां रै मोत्यां  
कर दीनी लाखां ठेरी ॥

जो म्हारी आंख्यां सूं देखे  
जाण सकैला सारी ।  
अरमान दबाया मिटज्यावै  
दुखिया री दुनियादारी ॥

ज.वग री ओळखाण  
छेवट सं नै ई मरणो ।  
विरथा समे गमावै  
पळ पळ है लाखीणो ॥

भोळा कैवै बड़ रंयी उमर  
सांचोट समे घटज्यावें ।  
दिन दिन कबड़ती काया  
कयूं दुख रो वीरु उठावें ॥





चुप रैवग में -तंत घणो  
बस याद करधा दो आंसू है ।  
रोज अर नैण भर देख्या  
सगळी दुनियां हांसू है ॥

जुग जुग री प्यासी आंख्यां  
पाणी सू होगी आली ।  
में जाण गयो बस सगळी  
दुनियां ममता सू खाली ॥

उड ज्या-नी पंछी तिसियो  
छोडेलो नैण बसेरा ।  
आस अमूजी रुळसी  
बचसी अरमान घणेरा ॥

अरमान हुवै जे , पूरा  
मिट ज्यासी आसा थोथी ।  
मिटै सीप समदर में  
बगं लाखीणा मोती ॥

जद मिटसी रात अंबेरी,  
आवंळो सुरजी प्यारो ।  
फल बणै फल मुरझाया  
ओ है घरती रो धारो ॥  
साथण ! मिटजै में होवै  
जीवण रो ई उजास घणो ।  
म्हारो मिटणो पक्कायत  
तू कर इण पर बिसवास घणो ॥



जुग जुग सूं पीड़ दवायां,  
हमरघा है चांदर तारा ।  
जुग जुग सूं मिटगो जाणै,  
पण हसरघा फूल विचारा ॥

देखै मुरभाती कळियां नै  
भंवरा - हिव् मोटी पीड़ा ।  
हंसती केसर, वयारी नै,  
कुचरं कुचमादो कीड़ा ॥

अरं दिवलं प्राण देवता,  
कद रोवै परदाणो ।  
म्हारा दुखेड़ा भुला रयो,  
म्हारै मूं रो हंसणो ॥

तूं कह' री है आज, अऊ,  
में बी तो वयूं गाळं ।  
भाव हिये में वसै जका,  
होठां पर कीकर त्याळं ॥

सायण ! नेड़ै आ जे म्हारै  
छेड़ै तूं वीण बजाणो ।  
तो अळसायेड़ै होंठा पर  
आज्यासी गीत पुराणो ॥

आसावां वांधी घणी घणी,  
मिटग्या बै सपना सारा ।  
दुनियां रै दबचोड़ा में,  
रुळग्या अरमान विचारा ॥



अरे मोकळी छायां ल्हादी,  
थागेडो सो पंछी आयो ।  
तिणको तिणको चुगतो चुगतो,  
अक फूठरो नीड़ बसायो ॥

मोटी ही आसांवा मनडं,  
हियडं हा अरमान घणा ।  
पर बसणं खूठी आसा,  
गुंई फबता गान घणा ॥

आई जद उतरादी आंधी,  
बिरछ पडघो धरती रं ऊपर ।  
बिखरधो नीड़, भरी आंख्यां ले  
पंछी भी उडायो फर फर ॥



जीवण समंदर रीं लै'र लै'र,  
 वणती अर मिटती जावै है ।  
 थारो म्हारो संजोग छणिक,  
 आ बात हियै क्यू आवै है ॥

हां अक गैल रा पाथी म्हे,  
 दुनियां रै मेळें में मिलग्या ।  
 इक दूजै री वही-सुणी, पळे भर  
 खेत्या, फेर गमरया ।

मदभरी अळवती आंखियां भर  
 गैल हिवडै रो प्यार घगो ।  
 दुखतोडा दो आंसू सागै,  
 जीवण मेळें नै तज देणो ॥

अधा-जाई री फेर छोड,  
 उण पार आगा नै चलणो है ।  
 हंसणो है साथण ई खातर,  
 कै छेरुड तो मुरभाणो है ॥



दो दिन रै इण जीवन में  
तू प्रीत भर्या दो बोल बोल दे ।  
ममता रै मीठे प्याले में  
थारै नेह री खांड घोळ दे ॥

तू वरस बादली वण'र  
मै बणूं थारोड़ी प्यास ।  
म्हारै नैणा पर छाज्या  
ज्यूं धरती ऊपर आकास ॥

तू आस बादली म्हारी  
म्हारो हिव रेगीस्तान ।  
मै हूं रात अंधेरी अर  
तू वण पून्यू रो चान ।

म्हारी करुणा निरख-निरख  
जद सिसकै थारा गान ।  
पण म्हारी ममता याद राखजै  
मुरभावै नीं मुळकान ॥



लेयग्यो खोस हिये सूं प्रीत  
देयग्यो आंसूडा दो च्यार ।

बायरो बाज रैयो सुंसार  
घूजणी चढगी बड़लै पात ।  
भडर्या वोरडियां रा वोर  
म्हारो भी पीळो पङ्गयो गात ॥

अकला ना ववैला नैण  
वादळी वरसै मूसळवार ।

बुभावे म्हारै मन रो दीप  
बखत क्युं काढै म्हासुं वर ।  
आवण दे ढेलरियै रै पांख  
जलमता ई मत देव जैर ॥

रोवतो ई जलमै है मिनख  
रोबतो ई छोडै संसार ।

हळर ई सपना री तसवीर  
रमतिया टूट खिड्या है आज ।  
ग्यानेसर गमग्यो गेलै बीच  
पड्या है ऊंधा सगळा साज ॥

नाथ जी कैयां छेडै राग  
टूटग्या सारंगी रा तार ।

॥ १ ॥



मंगेजण मधरी मधरी चाल  
पगां कांटो गड ज्यासी अरे ।  
मिनखां रा मनडा मतना मार  
अरे तो घुट घुट मरज्यासी अरे ॥

थांरो ओ केसर सो तनडो  
ऊपर अरे लुपाळा गैणा ।  
मार दिया मभू जोवन रे मांय  
थांरा अरे सुरमाळा नैणा ॥

मिजाजण ! निजरां सूं मत मार  
तीर हिवडै फंस ज्यासी अरे ।

पडी जद थां ऊपर निजरां  
भुळभयो मीं पून्यू रो चान ।  
अळसायै होठां पर ओजूं,  
आयरया भ्हाः विसर्या गान ॥

मत दिखा कवळ सो वदन  
कोई भंवरो लुट ज्यासी अरे ।

अरे ! तूं कामदेव री रति  
ले भाई घरती पर आतार ।  
'क है तूं सुरवाळा सांप्रत  
ढोय री जोवनपण रो भार ॥

गजवण ! हंवे हंवे रे मांय  
किणी रो मन उळभासी अरे ॥  
मंगेजण ! मधरी मधरी, चाल  
पगां कांटो गड ज्यासी अरे ॥



महैलों जोवन दीप जळाती ।  
नैणां बादळिया बरसाती ।  
रूपाळी गोरडी चालै;  
मंगेजण मोरडी चालै ।  
गणगोरडी चालै ॥

वात बात में मोती बरसै,  
रुं वैं रुं वैं सूं रूप घणो ।  
खुद कुदरत मनई नै लोभा,  
घर आई है मिनखपणो ॥

वा हिरणी सी सरमांती,  
भवरां ज्यूं अलक उडाती,  
गणगोरडी- चालै ॥

चन्द्रबदन नै निरख,  
वादळ री ओटां होग्यो चान ।  
थाळ रख हाय घडी मंडी,  
ले मरवण हिवेई घणो गुमान ॥  
हागळियै घूमर मी घमकाती,  
महैलां विजली सी चिमकाती,  
गणगोरडी चालै ॥

रूप रो देख्यो घणो उजास,  
दीप री सरमागी बाती ।  
उभळग्या सजळ सीप सा,  
नैण, प्रीत रा दुळक्यायां मोती ॥

मनई जीवण जोत जगाती,  
वा नैणां सूं समंभाती,  
गणगोरडी चालै ।  
मंगेजण मोरडी चालै ॥



नैणां में, राच्यो गोरी  
भीणो भीणो कजरो ।

चाल रे ढाळ रा चटका ई न्यारा ।  
रंग रे रूप रा लटका ई न्यारा ॥

अव, सैयो नही जावै  
म्हासूं थारोड़ो नखरो ।

छम छम बाजै थारोड़ी पायलड्यां ।  
चम चम चमकै रतनाळी आंखडल्या ॥

उड उड जावै रे तीखै  
नैणां आळो कजरो ।

माथै री विदी है पूनम चांद ज्यूं ।  
गळ सोवै हार, हाथ बाजूबंद सूं ॥

भवरियां लुभावै थारो  
हाथां आळो गजरो ।

मेघ घटा सी अै माथै री अळकां ।  
सायण भड़ी जू है भीजी'र पळ हां ॥

रिततै कदळ सो  
यो थारोड़ो मुखड़ो ।

सोवणी साड़ी, गोटे री लंगा ।  
गोरो वदन'र, पीळा पीळा गैणा ॥

नखराळी ! हींगळू  
रमेड़ो धारो तन मधरो ।

नैणां में राच्यो गोरी  
भीणो भीणो कजरो ॥



पलकां में कैयां बांध सकूं,  
तूं आंसू वण'र ढळक्यावै ।  
सांसां में कैयां ढाभ सकूं  
तूं रुंवें रुंवें में रळज्यावै ॥  
तूं ई वता में काई करूं ?

वादळ बीचै ढूंढूं, पण तूं  
विजळी वण'र लुकज्यावै ।  
समदर माळें सोधूं, पण तूं  
लहरां वण'र गुमज्यावै ॥

वांथा बीचै कैयां भरूं ?

जद देखूं तन रात अंधेरी  
जुगनू वण'र चमक्यावै ।  
जद देखूं तन बागां बीचै  
फुलड़ां साथै मुळक्यावै ॥

हिये मांयनें कैयां धरूं ?

बाय्रियें संग सोरम भेजे  
भवरां मनडो भरमावै ।  
ग्रामें बीचै बँठ, तारां सूं  
झाला देय बुलावै ॥

नेडें जाता घणो ढरूं ।

लुक मत मन रा मीत  
यांरी याद हिये में आवे ।

ओ जीवन है रत घसंत री  
बागां फूल खिलेला ।  
भंवरा चूटे कळी नवेली  
होठां होठ मिलेजा ॥

म्हारें हिव री नुवीं उमंगां  
पळ पळ में मुरझावें ।  
लुक मत मन रा मीत,  
यांरी याद हिये में आवे ॥

प्रीत भरेडा गीत गांवतो  
चांद लुकयो वादळ में ।  
नैण ढभै न नीर, वरसंरयो  
वादळ आंचळ में ॥

चांदी सी च्यानण रात,  
नैणां री नींद गमावें ।  
लुक मत मन रा मीत  
यांरी याद हिये में आवे ।



जे करणी है दो बात  
चाल तूं नन्दी परलै पार ।  
जे तिरणो है भवसागर,  
चाल तूं आज बीच मझधार ॥

बरस बीतग्या पण न सुणी  
धारी प्रीत भरी वाणी ।  
जुग बीत्यां पण कह सकधीनीं,  
म्हार अन्तर री का'णी ॥

जे साथण तूं है म्होरी,  
म्हा संग सोक्युं चाल हार ।

रात में देख अकलो चांद,  
च्यांनणी मुळक्याई ।  
किनारां सूं जद लडग्या नैण,  
नदी भी लेली अंगड।ई ॥

जे सूं तूं जीवन सोरभ,  
ले चाल साथ बहार ।

डवो दे निरमळ जळ रें बीच,  
कमळ सी आंगळी सागै ।  
छेड दे कोयलडी रें साथ,  
प्रीत री रागळी सागै ॥

प्रीत बेलडी री कूपळ  
तूं दुनियां मांय पसार ।

नाच नाच म्हारा पगल्या दूह्या,  
तळया खाल उतरगी ।

जग री मैफिल देख संभाळी  
मिल्यो नहीं बेदरदी ॥  
'क पायल टूट गई ।

मन सुं राग निकळतां पैल्यां,  
तन वीणा रा तार टूटग्या ।  
करम हिडोळ हीडें जिदगी,  
आवींटे सुं हाव छूटग्या ॥

रिस्ता-नाता<sup>१</sup> स्है स्वारथ रा,  
कोई नहीं हमदरदी ।  
'क पायल टूट गई ॥

चले मीत सुं मिलवा खातर,  
रोज रोज जि द गा णी ।  
ढळती उमरिया<sup>१</sup> वहती जा'री  
ज्यूं नंदी रो पाणी ॥

दरबाजे जमदूत देखकर  
चैरां छाई जरदी ।  
'क पायल टूट गई ॥

आयगी है आज साथण,  
आखिर मिलण री रात ।

आज तूं बेघडक होय'र,  
खोल हिव रा बांध ।  
आज घूंघट वादली सूं,  
काढलै मूं चांद ॥

आज छण भर-ढाभलै  
आ नैण री बरसात ।

छोड रै आखिर घड़ी में  
आज तूं स्था लाज ।  
कानां में गुंजण दे  
थांरी मीठी आवाज ॥

बोल बेगी बीत ज्यासी,  
दो घड़ी री रात ।

सिसकै मत तूं आज साथण,  
मुळकती दे सीख ।  
दोनूं हाथ सूं दे मन तूं  
प्रीत री बस भीख ॥

आज एबियोडी बता दे,  
संग मन री बात ।



क्यूँ आई म्हारें सपने में  
आय र वस तूँ रो दीनी ।  
थारा आसू ढाभण नै में  
अडवां पलक विछा दीनी ॥

अव म्हारी पलकां भीजेड़ी  
आ देह फिरै मुग्भाई सी ।  
सुपनै में दीखी थारें में  
जीवण री परछाईं सी ॥

मैं हंस दीन्यो तनै चिढ़ावण नै  
तूँ कर न सवी आ वात सहण ।  
तूँ समझी ना गेली ! आ ही,  
वो ही हो ममता रो बंधण ॥

तूँ रोयर मनै बांध लियो,  
अव साथण ! हंस'र खोल ।  
अव बता हियै रो तोल बढा  
है कितो प्रीत रो मोल ॥

लागू जे आद्यो  
: नैणां में समालै ।  
दिखूं जे लुंठो  
पळकां पर बिठालै ।

पण तूं भी दूजां री  
ज्यूं मतें क्यूं,  
निगावां रै हळकें,  
तखड़ियै सूं तोलै ।

तूं रोजे मत म्हारै  
मरण रै वाद ।  
जीवण सूं बेसी,  
मौत है आजाद,

जलम रै सागै  
मौत है सरू  
असल जळम ईं  
मरण रै वाद ।

□



जुगनु चिलकै रात देख,  
 म्हारै दरद रो चैरो ।  
 ये भी सोज्यावो तारा,  
 किण रो देरघा पैरो ॥  
 आखतो हुयेडो चांद,  
 हाल आयो कोनी  
 पण उण रै कोल रो  
 मनडै विसवास घणरो ॥



पैल्यां सोच्यो कै  
 समदर में कूदू कीकर ।  
 कूद'र सोचूं कै  
 पाछो निकळू कीकर ॥  
 बूंद में समदर है,  
 कै समदर मांय बूंद  
 देख रघो हूं,  
 कुण है वारै, कुण भीतर



प्रीत री आग मांय  
 हियो मोम ज्युं पिघळें,  
 पण होंठ है अबोला,  
 धुवो कैयां निकळें  
 मेरें रोवणें सूं भी,  
 तूं हुवें बेराजी,  
 आंख रा आंसू है,  
 कोई उगळ नीं निकलें ।



सामनो फेर होज्याय  
 अकर उण सूं ।  
 भरम स्है मिट ज्याय  
 मिलण सूं ।  
 रात भर री उड़ीक  
 रें प छें,  
 ओस भी मिल ज्याय,  
 किरण सूं ।



आस

(अक)

आई. पतझड़ फूल रया नीं  
भंवर भी अब भूम रया नीं  
उड़ती तितली जद आस पास  
बैठी बागां में होय उदास  
कद तांणी आ पतझड़ रहसी ।  
छेकड़ तो आगत भी आसी ।  
फूल मिलेला, भंवर उडेला ।  
कळियां ओजू अघर मिलेला ।

(दो)

दिवला थारी जोत जगा  
अंधियारै नै दूर भगा  
परभात हुयो तो के होसी  
छेवट तो संझ्या भी आसी  
रातां सुं नेह बघातो जा  
जगमग जोत जगातो जा

(तीन)

चकवी मत काळजियो वळपा  
चकवा मत तूं प्रीत भुळा  
मनडै थोडो सो धीर राख  
चकवी मत हिवडो वणा राख  
दिसण दे परभात्यो उजास  
पूरी हुवैली थारी आस

(चार)

म्हारा मन तू भी मत डरजै ।  
चिंता में घुट घुट मत मरजै ॥  
कद तांणी धूपळ चालैलो ।  
छेवट सिंघासण हालैलो ॥  
कळियां बागां में भूमैली ।  
उठ आसा मुखडो चूमैली ॥  
मारग सूं अंधियारो छंटसी ।  
हंसता-हंसता जीवण कटसी ॥

□

आस

(अक)

आई पतझड़ फूल रया नीं  
भंवर भी अब भूम रया नीं  
उड़तो तितली जद आस पास  
वैठी बागां में होय उदास  
कद तांणी आ पतझड़ रहसी ।  
छेकड़ तो आगत भी आसी ।  
फूल विलैला, भंवर उडैला ।  
कळियां ओजू अघर मिलैला ।

(दो)

दिवला थारी जोत जगा  
अंधियारै नँ दूर भगा  
परभात हुयो तो के होसी  
छेवट तो संझ्या भी आसी  
रातां सूँनेह बघातो जा  
जगमग जोत जगातो जा

(तीन)

चकवी मत काळजियो वळया  
चकवा मत तूं प्रीत भुळा  
मनडं थोड़ो सो धीर राख  
चकवी मत हिवडो वणा राख  
दिखण दे परभात्यो उजास  
पूरी हुवैली थारी आस

(चार)

म्हारा मन तूं भी मत डरजै ।  
चिता में घुट घुट मत मरजै ॥  
कद तांणी धूपळ चालैलो ।  
छेवट सिधासण हालैलो ॥  
कळियां बागां में भूमैली ।  
उठ आसा मुखडो चूमैली ॥  
मारग सूं अंधियारो छंटसी ।  
हंसता-हंसता जीवण कटसी ॥



गळी गळी में पणघट है पण  
मरघट अंक वणायां सरसी ।

मत धारो हथियार मानखो  
सीत मीत में हळ ज्यावैलो ।  
समै बडो बलवान देखज्यो  
गरभ कदै तो गळ ज्यावैलो ॥

ज्यां मिनखां होग्यो रातींदो  
वां नै गैल वतायां सरसी ।

जात-घरम थोयी डोळघां है  
'भयान पून' सूं ढहज्यावैली ।  
ऊंच, नीष वाळू री क्यारी  
'समभ' खाळ में वह ज्यावैली ॥

फिंगरियोडें चंमगुंगा नै  
स्याणप-सीख पढायां सरसी ।

डूंगर मगरै, खेतां होती  
नंदी ठेठ समदरां ढूकें ।  
ईसर, अल्ला, गुह, मसीह स्रहै  
भयानी अंक बताता कूळ ॥

अंक जोत रो काजळ सगळें,  
मिनखां नैण लगायां सरसी ।  
गळी गळी में पणघट है पण  
मरघट अंक वणायां सरसी ॥



छम्मक छम्मक पाणी भरकै  
घर ल्यावै पणियारी ।  
कांवळो हाथ, भरेडो घट  
इतरावै पणियारी ॥

मोत्यां रसड़ी, माथें मंमद,  
गळ में नीलख हार ।  
कानां भुमको, नथ नखराळी,  
काजळ नैण कटार ।

रूपल देह, सोनल गंगां,  
इठलावै पणियारी ।

धाजूवंद री लूमां लटकै,  
बंगड़ी पळका मारै ।  
रतन जडेंडी पूंछी सोवै,  
हथ फूलां रै स्हा रै ॥  
बोळ तागड़ी कड़ पतळी,  
बळखावै पणियारी ।

मघ रा-हळ वा पग ल्यां रै  
सग पायल री भणकार ।  
साथणियां संग चलै गुमानण  
कर सोळा सिणगार ॥

साथण संग ठिठोळी करकै  
मुसकावै पणियारी ।

लालां जड़ियोड़ी ईंडणी,  
माथ कसूमल चीर ।  
धुधर धणस सुं, चलै  
छोड़ती, नैणा तीखा तीर ॥



मभ जोवन में होरी बौभळ,  
सरमावै पणियारी ।

केसर सँ मुखडै रै ऊपर  
लट भू मै न ख राळी ।  
केळ खंभ सी पिडी सौवै,  
हाथ चम्पा री डाळी ॥

चलती गँल मिनख रो मनडो  
भ र मा वै प णि या री ।

छम्मक छम्मक पाणी भर के  
घर त्यावै पणियारी ॥



कुण गावेलो गीत म्हारला  
जुगडें में कतरो सो जीणो ।

आसर री ओळयां घसगी है  
सबदां खुद री साख गमाई ।  
साहित मेल्यो सेठ अडाणै,  
कलमां जाय तीरथा न्हाई ।

दुनियां वीचें कुण चावेलो,  
'आसो' छोड 'आव' नै पीणो ।

हंवें हंवें री पीड़ म्हारली,  
सबदां में कींकर बळज्यांसी ।  
काया रो काचो भांडो है  
समैसार माटी रळज्यासी ॥

दिन दिन पडतो जाय जीवडा  
सांसां हाळो डोरो भीणो ।

उगतें सूरज आंख खोल ली,  
संज्या मे अत्र जेन कती सी  
वात वात में गेरो कटभ्यो,  
पांथी री आकात अतीसी ॥

उठनी हाट, उदासी चैरै,  
मालण कूंत जियो है कीणो ।  
कुण गावेलो गीत म्हारला  
जुगडें में कतरो सो जीणो ॥

चांदा तू अर च्यानणी  
म्हे मारुणी भरतार ।  
यांरी छणमण च्यांनणी  
म्हां पायळ री भणकार ॥

वीत नी आ रात  
चाद तू मधरो चाली रै ।

डागळिय वतळा करां म्हे,  
फुलडा सेज विधाय ।  
तू आभं मुळक रघो है  
तारां वाग लगाय ॥

दरद कळी रो जाण,  
वाग रा साधा माली रै ।

हिवडै हाळो हंस जीमरघो  
मन मोती अणयाग ।  
सेज सिराणै पीव लगारया  
सौरम सुरंगो वाग ॥

बिन बिरखा रै नीर,  
सूख री चम्पा डाळी रै ।

में सावण री बादली ज्युं  
वरस रई दिन रात ।  
तन रो लहरयो ल्याया भंवर  
ओढावो ई स्यात ॥

कसणा जारघा टूट,  
सूख री होठां लाली रै ।

थारी किरणा इमरत बरसै,  
म्हारा मदच्छक नैण ।  
होठां रै प्यालै सू पीर्या,  
छैल भंवर मभ रैण ॥

देवै टल्ला सांस,  
उभळ'री जोवन प्याली रै ।

मन मुळकै तूं नैडी ऊपर  
कामण हियै लगाय  
म्हां नै सायण सोकयुं दिन्यो  
सै'नां में समभाय ।

मुड़ मुड़ कर मन भांक,  
बाण मत पटकै काली रै ।



आं रो अक उपाय, कांटो, कीट, कुमाणसां  
 रहज्यो डील वचाय, जूता मारो भायला ।  
 नख, नंदी, हथियार, सींगा हाळो जानवर ।  
 कद बदलें अ च्यार, नही भरोसो भायला ॥  
 दरखत नंदी तीर, पर घर फिन्ती डावडी ।  
 आं में किण रो सीर, कद वह ज्यावें भायला ॥  
 मायत पालण हार, बेटो जो सेवा करै ।  
 सुख-दुख सायण नार, सांच समभल्लें, भायला ॥  
 तारा लाख हजार, चंदो आभें अकलो ।  
 टावर अक विचार, घणो कूटळो भायला ॥  
 गरवी जोडो हाथ, लोभी नै पीसा देवो ।  
 दोन्यूं भूल आकात, पूंछ हिलासी भायला ॥  
 जिणो वाप कर्जदार, बेटा गैला जलमज्या ।  
 फुटरी होवें नार, घर घर बैसी भायला ॥  
 पखी पखेरू रात, वंठें अकज डाळ पर ।  
 जद होवें परभात, अळगा उडज्या भायला ॥  
 नही झूठ रें पांख, लोभी रें मन साच नीं ।  
 ना कामी रें साख, वचणें रीजें भायला ॥  
 फोगां रें ना पात, मग्गोजें फुनडा नहीं ।  
 घूघू दीखें रात, करमां रा फळ भायला ॥

भलै मिनख रो वास, दुर्जन गुणी वणाय दे ।  
फुलड़ा री सुवास, कांटा सूधै भायला ॥

खुद रै कुणवं वर, दूजां रै के काम रा ।  
आक, घतूरा, कर, वाळण जोगा भायला ।

लंगवाड़ा रो साथ, साच न भूठ वणाय दे ।  
लाठी जिण रै हाय, भंग लेयगो भायला ॥

कर दुस्ता सूं हेत, गोधम पाळो जीव में ।  
गधा खावै खेत, जोरामरदी भायला ॥

पीमो मोटी चीज, चाये जो करवाय दे ।  
लोम पाप रो वीज, बडका कहग्या भायला ॥

दामोदर अर दाम, दुनियां में दो ही बडा ।  
दाम करै स्रहै काम, दामोदर नीं भायला ॥

मिन्दर दियो वणाय, अमल बेच कर तस्करां ।  
जगत पूजवा जाय, वाह वाही दे भायला ॥

हर चौराहे चोर, मौको ताकै मिनख रो ।  
कस्यो मचावै सोर, छाना बैठ्या भायला ॥

लम्पट और लवार, चून चोरटा चुगलिया ।  
धरती मायै भार, अ सगळ्या ही भायला ॥

लुब्ध्या वणग्या साद, साधु बिगळा ही दीखै ।  
मिटी मांठ मरजाद, मिनख पणै री भायला ॥

वैठ्या है जिण डाळ, उण नै काटे गैलियां ।  
सरवरियै री पाळ, रैवै तिसाया भायला ॥

जट आवै तूफाण, बहज्यां हंख र टाररा ।  
मिनख जाण र अजाण, पाळा बांधं भायला ॥

सावत नैण, लिलाइ, चूंघीज्यो है मानखो  
देखो डोभा फाड़, सुरता भूल्या भायला ॥

मिनखां वाण कुवाण, माया रै वाध्यां पड़ें ।  
लिछमी है मिजमाण, पळ दो पळ री भायला ॥

सवल साच नें नांख, हिड़काग्यो है मानखो ।  
कीड़्या लागी पांख, जातीवाड़ो भायला ॥

कैया वचावां नाड़, गळकटिया गैलां फिरें ।  
भली राड़ सूं वाड़, हाय जोड़ लै भायला ॥

माया मिनखां लार, नीं तो लालां कांकरा ।  
बिन मांभी पतवारं, कांई अरथ री भायला ।

करम समै रै सार, भिखो देख बरळाय मत ।  
नळ राजा रो हार, खूटी गिटगी भायला ॥

लिख करमां रा लेख, फळ देणो करतार संग ।  
राजा हरिचन्द देख, सत छोड़यो नीं भायला ॥

लीजै पूरी तोल, वोळण पैल्यां जीभ नें ।  
है लाखीणो मोल, वातां हंदो भायला ॥

चिड़ियों रो चूचाट, सिकरै रै कानां पड़ै ।  
हो ज्यावै सरगाट, अक मिनट में भायला ॥

मतां लगावै राख, मत घुरड़ावै चाचरो ।  
मनडो निरमळ राख, तिरज्यावैलो भायला ॥

नेतागिरी री चाट, मोटी अवखाई वणी ।  
अबें पकड़ली खाट, पंच हारता भायला ॥

भोळा गाभा घर दुनियां रै बांध्या पड़ै ।  
दूब्यो काळी वार, देस आपणो भायला ॥

इक दूजै री टांग, चौपड़ ऊपर, खीचरघा ।  
अखै कुवां भांग, पड़गी दीखै भायला ॥

करर्या डिस्को डांस, पांच सितारै होटलां ।  
मिलज्या अकेर चांस, टिकट मिलण रो भायला ॥

बाबो मांगै बोट, हाथ जोड़, मूं फाड़ियो ।  
दयूं मगरां में सोट, मन में सोचूं भायला ।

आ बोटों री साल, जण जण रै घूषी चढ़ी ।  
करर्या चांचरा लाल, धाणै ऊभा भायला ॥

कुरसी ऊपर बैठ, ताऊ करतो टरड़का ।  
ठीली होगी पेंट, जगां छूटसा भायला ॥

जीपां रा भूभाठ, लोडसपीकर बोलरघा ।  
अचुणाव रा ठाठ, कद-कद आवै भायला ॥



जणै जणै रा पैर, नेता दावै भींच कर ॥  
कौवै "कोनी गैर, धारो टांबर" भायला ॥

दरसण दीन्या आय, विरसा री डोकर जियां ।  
धारी काळी गाय, वोट दिरावो भायला ॥

बैठ विलीवै थूक, चंडाजां री चौकड़ी ।  
दें गाळया रो छूक, गैलें बगता भायला ॥

निकळगयो भ्रव बैर, ढीनी होगी घोटड़ी ।  
भ्रवै भिड़ावो टंट, कुरसी विदकी भायला ॥

बैठ घणा उमगीज, माल परायो चारलें ।  
चमचा मोटी चीज, दे फटकारो भायला ॥

बैठै कीकर गोट, मौको ताकै मानखो ।  
दे फींचयां में सोट, ओसरं देख्यां, भायला ॥

मोटी रकमा जीम आख्यां फोड़ै ब्लैंड सूं ।  
अंहड़ा नीम हकीम, गांव-गांव है भायला ॥

ऊभा जोवां बाट, रासन री दूकान पर ।  
बीच बजारां-हाट, ऊमर गळगी भायला ॥

बैठी भिणकै वांभ, चाल्यो कोनी नावगो ।  
बाज्या घाळ'र भांभ, जूता वाजै भायला ॥

रोज मचावै कोद, कालेजां में टांबरघा ।  
आछी बिगड़ी ओद, म्हारिं देस री भायला ॥

सुलफो चिलम चढ़ाय, पढग जाय इसकूल में ।  
सिर गरणेटा खाय, पेपर देख्यां भायला ॥

रोती होगी गोज, पब्लिक सकूल पढावता ।  
टींगर में कम बोझ, थलें सूं भी भायला ॥

डिगरी लीन्या हाथ, दफतर रें वारें खड़घा ।  
नहीं सिफारस साय, वड़वा कुण दे भायला ॥

देखो क्वालिज मांय, पूतां रा पग पालणें ।  
रोग लगायें लाय, भाठा बावें भायला ॥

टींगर काचा भाग, कूगेलो पकड़ें घणो ।  
राजनीत रा काग, भिसळा देवें भायला ॥

घणियें लीद मिलाय, लखियो वणगयो लखपति ।  
करसो अन्न निपजाय, भूखो सूतो भायला ॥

कई बावळीबूच, अकड़ी ज्युं अमचूर है ।  
अं गंडका री पूंछ, बांकी रेंसी भायला ॥

भगतण-भड़वा, भांडें, बीच वजारां लूटरघा ।  
रैया मसखरा टांड, देख्यां जावो, भायला ॥

मनडें उठरी भाळ, सासू रा मौसा सुणें ।  
छोरी नें दे वाळ, घन रा लोभी भायला ॥

भांभर री भूणकार, आंगणियें आछी घणी ।  
कदेक सांभ सुवार, कोतक भांडें भायला ॥

लखटकिया जंजाळ, देख लगावै लाटरी ।  
पळगोड्या पंपाळ, निरभागीडा भायला ॥

मरवण कर सिणगार, मेडी मांय उडीकरी ।  
दारू पी भरतार, कुरडी पोड्या भायला ॥

माषां री मनवार, देता बं मीनस गया ।  
बचग्या चाटुकार, थूक बिलोता भायला ॥

घर घर मरण त्युवार, मरुघर नित मनाइया ।  
हाडां रो ब्योपार, अरु करै है भायला ॥

मूंडै टपकै लाळ, देखै काची कामणी ।  
काया रा लेवाळ, राखस हांडें भायला ॥

घरां ओदस्यां नार, मोल्यो है पळगोडियो ।  
घरती ऊपर भार, अहेडी जोडी भायला ॥

दिनगै कसै पलाण, भांभरका खोलें परा ।  
जग मेळें इकलाण, ढूढ लिया है भायला ॥

जोवन री पणिहार, मुळकती फुलडा जिती ।  
कोई सिग्गणहार, सौरम सूधै भायला ॥

बंध्यां लाज री डोर, माटी रा हो पुतळा ।  
काळजिये री कोर, हुवै गिदगली भायला ॥

दीखै कोती कंथ, घुंघट मोदो भरमरो ।  
कंया लहादै पंथ, धूवर छाई भायला ॥

कठ गई मरजाद, मूँड पर ताळो पड़यो ।  
म्हे होय'र आजाद, बंधिया बैठ्या भायला ॥

स्याणा बणग्या भाट, कुवदी कलम चलाय रघा ।  
भोळा बीच पाट, धुण ज्यूं पीसै भायला ॥

मन माया रो जोम, कुण गिरदानं सीख नै ।  
बळरघा करता होम, हाथ मिनख रा भायला ॥

बकरै री मा खैर, कद ताणी मनावसी ।  
लूंठा सूं कर बैर, निभणो दोरो भायला ॥

चोर हुया रखवाळ, पैराती सूता पड़घा ।  
कद तक बांधा पाळ, लाख कोचरा भायला ॥

मतां दांत तिडकाय, दुख दूजां रो देखकर ।  
गफळत में भरमाय, दया भूलग्या भायला ॥

सीख मिनख रै सार, समझूं वो ही जाणसी ।  
नाव विना पतवार, चालै कोनी भायला ॥

नदी बहती नीर, सगळां नै चोखो लगै ।  
संत, श्रीलिया, पीर, बगता चोखा भायला ॥

होय जमी रै चंप, मंड सूं म्हैल बणालिया ।  
देह्या आवै हैप, मोडा लोभी भायला ॥

जिण घर होवै ग्यान, लिछमी तो पूठी फिरै ।  
देख माया गुमान सुरसत रुसै भायला ॥

चाकर पग रघा, खीच, नेता केस उपाडरघा ।  
दो पाटा रै बीच, अफसर पजग्यो भायला ॥

भाई काँड़ें वैर, साईना दुसमण वर्ण ।  
साजिम हाळो जै'र, घर घर बंटगयो भायला ॥

हंस कर काँड़ें दांत, लात मार मुसकाय दे ।  
नहीं जेवड़ा नाथ, सांड घ्रावखा भायला ॥

लम्पट होग्या नाथ, डाकू वणग्या वादस्या ।  
अव मोठां रै साथ, घुण पीसैला भायला ॥

मंगता सै मत मांग, अँ तो पैल्यां ई'मर्या ।  
कंजूसड़ा रो सांग, मतना काँड़ें भायला ॥

मिलग्या कोठी, कार, दरबारी जद तक टिकें ।  
पिरजा रो दरवार, स्रहै सूँ मोटो भायला ॥

मूँडे राख लगाय, जोगी होग्या जोगणा ।  
घूणो बैठ जमाय, खाय चूरमो भायला ॥

छोरी खोलै केस रोज बुलावै भूतणी ।  
वेगो कांटा वाळ, चढा टीवड़ी भायला ॥

भाठा रया वगाय, कुचमादी रो कोथळी ।  
घर घर लाय लंगाय, फुलस बुलावै भायला ॥

भोळी लरड़ी तार, स्रहै रो लाळां टपक'री ।  
के ल्याळी के नार, सगळा ताकै भायला ॥

वण वंठ्या अणजाण, कल तक तळना चाटता ।  
सूता खूँटी तांण, काम निवळता भायला ॥



पेटी मांय बोटां नँ सलाम भायला ।  
पेटी मांय नोटां नँ सलाम भायला ॥

लाठी जिण रँ हाथ,  
भँस बो ही राखसी ।  
ठाडँ रो डोको ही  
तो डांग फाड़सी ॥  
गांव रा लठँत होग्या  
जिण साथ में  
बो ही जनता रेवड़  
नँ वाड़ँ वाड़सी ॥

लाठी अर सोटां नँ सलाम भायला ।  
पेटी मांय बोटां नँ सलाम भायला ॥

अक बार चूतरँ पर  
चढग्यो जीवड़ो,  
ठीकरां सं ठेकादार  
वणग्यो खीवड़ो ।  
पाडँ आळी पूंछ छोड़  
चालँ कार में,  
राबड़ी नँ छोड़ अब  
पीवं धीवड़ो ॥

परमट अर कोटां नँ सलाम भायला ।  
खरा अर खोटां नँ सलाम भायला ॥

बलिदानां री कांणी सै पुराणी भायला ।  
बूढ़ी म्हारें देस री जवानी भायला ॥

गांधी-गांधीवाद सै हलाल होयग्या  
खादी में लुटेरा मालामाल होयग्या ।  
'वंदेमातरम्' बोलणिया भायला,  
रूसी-चीनी-अमरीकी दलाल होयग्या ॥

दुनियां होगी दौलत री दीवाणी भायला  
बूढ़ी म्हारें देस री जवानी भायला ॥

वेद अर कुरान खंड खंड होयग्या  
गीता ग्रन्थसाव सै त्रिभंड होयग्या ।  
वाड़ घोळ दोपारां खेत खायगी  
रुखाळी रा सगळा माप दण्ड खोयग्या ॥

मौत सूं भी रद्दी जिन्दगाणी भायला ।  
बूढ़ी म्हारें देस री जवानी भायला ॥

विद्यालय विद्या री दुकान होयग्या,  
लुच्चा अर लफंगा सै महान होयग्या ।  
देसआळ नवसै रें दीवळ लाग री ।  
जासूसी अजेंट अर दीवाण होयग्या ॥

जिदगी है आख्या आळो पाणी भायला,  
बूढ़ी म्हारें देस री जवानी भायला ॥

विदेसां री चाल रा गुलाम बणर्या हो ।  
सिक्खो खालिस्थान री थे मांग करर्या हो  
जलियाआळ वाग री सौगन्ध भूलग्या ।  
भगतसिंघ री ल्हास नै सलाम करर्या हो ।  
गुरवां री भूत्यां अ कुत्बानी भायला ।  
बूढ़ी म्हारें देस री जवानी भायला ॥

गंडक किलोठां आय रघा है ।  
गधा गुलगला खाय रघा है ॥  
पोपांजी रो राज ।  
भायला के करल्यां ?

'सदाचारी' नित ब्याव रचावै,  
'ब्रमचारी' बन्दूक बणावै ।  
सत्ता री सकळाई चढ़गी,  
मोडा बैठ्या मौज मनावै ॥  
दुनियां म्हां सै पूछण लागी,  
चील बडी कं बाज ।  
भायला के करल्यां ?

होठ हंसी रा भाव देखल,  
हिवड़ मांला घाव देखलै ।  
किरड़ रो ज्यूं पलटो खावै,  
मिनखां रा बदलाव देखलै ॥  
सगळा जीव जिनावर मेलै,  
मांकड रै सिर ताज ।  
भायला के करल्यां ?

पूजायळ में वम वणीजै,  
सांच कंवता जीभ कटीजै ।  
'रोबट' चाल पड़घा सड़कां पर  
चूसै दाई मिनख मरीजै ॥  
कैयां घावां लेप लगावां,  
हुयी कोढ़ में खाज ।  
भायला के करल्या ?



पाँड़ीसी मूच्छयां फरकावै,  
मौको ताक सांकड़ो आवै ।  
दोस दूसरा नै के देवां,  
खुद रो जीवन ढकयो न जावै ॥  
नागो होय मिनख नाचै है,  
सरम वची ना लाज ।  
भायला के करल्यां ?



मांची रापारोळ, भायला देख्यां जावो ।  
वाजें हें दमढोळ, भायला देख्यां जावो ॥

सुणीजें भूंभाट, गांवडा जीपां आई ।  
अबकें होग्यां ठाठ मजें में माध्या भाई ॥

चूसा होग्यां कोळ, भायला देख्यां जावो ।

पांच वरसूं सूं पाछां आग्या घोता वांध्यां ।  
हांडो लेली नुंवीं लापसी वासी रांध्या ॥

मीठा बोळें बोल, भायला देख्यां जावो ।

देखें धोळो भेख पावसूं जतता सारी ।  
आंख भोंच दे दूध कोई भी भरो दुवारी ॥

दे सिक्कां सूं तोल, भायला देख्यां जावो ।

दारु री दूकान खोल दी, कामळ बांट ।  
देता सिर में ठोल भाज तो तळवा चाटें ॥

रेंया टाट पंपोळ, भायला देख्यां जावो ।

बाबाजी थारी लांगटी  
लफंगा खोसली ।  
साच अहिंसा री वाणी नै  
गंडकां मोसली ॥

रामराज रा सपना  
सगळा होग्या झूठा ।  
हेलें पर आवणियां,  
सगळा गया अपूठा ।  
दारू री बोतल में  
वडग्या बोट देस रा ।  
हरिजन गावो भजन  
देस में राजा लूठा ॥

दूध-दहो री बहती नंदी  
सांपा सोस ली ।  
बाबाजी थारी लांगटी  
लफंगा खोसली ॥

हाकिम होग्या बगना  
परंजा घाळें बार ।  
फुलस्यां थारी डांग ले  
ठोकण नै है त्यार ॥  
चक-जक काम करेला  
घोलें'र दोषांरा ।  
सुरा सुन्दरी चाल रयी,  
कर सोळा सिणगार ॥

बेईमानी नै अब सगळां  
पाळें'र पोसली ।  
बाबाजी थारी लांगटी  
लफंगा खोसली ॥

नोटां सूं फाइल सरकें,  
लाग्या मोटा भाड  
घोळी कांचली अजगर  
पैर करूं सुसाड ।  
चौपड पर चमरोदा चालें  
भायर देखल्यो,  
चमचा चौडा होयरधा  
मोटी होरी नाड ॥

ठग विद्या री पडगी  
सहेने बाण खोडली ।  
बाबाजी थारी लांगटी  
लफंगा खोसली ॥

दो दो चोटी, दोघड़ जूड़ी ।  
ऊंची चप्पल, डील उघाड़ी ॥  
देख बूढ़ी दादी बोली  
'मरो रामारघो—है थारै की ।

पोत पावडर लगा लिपस्टिक  
मूं ल्याळी को सो कर लीन्यो ।  
आंख्यां गीड़ नावड़ कोनी,  
काजळ सूं सोक्युं भर लीन्यो ॥

देख कवार्यां काजळ टीकी  
बोली बूढ़ी—है थारै की ।

बेटो सूट-बूट में करड़ी  
वाप लीतरा घीस्यां हांडै ॥  
बात बात पर माईतां पर  
नागौरी आंकल ज्युं टांडै ॥

जद कूटीजी सास व्हू स्युं  
बोली बूढ़ी—है थारै की ।

सुबै खाट सै उठै वीनणी  
पेल्यां वीनै चाय भलायो ।  
मोठ-बाजरी बादी करद  
ई खानर गेवूं मंगवावो ।

रोज भूतणी देख व्हूं में  
बोली बूढ़ी—“है थारै की” ।

भायला ! क्यूं उड़ै; तूं हवा-में  
धारी औकात; सगळा ई जाणै ।  
पांखी नें पखैरु . ई . समझै  
मिनखां नें मिनस; ई पिछाणै ॥

तूं देख्यो व्हेलो चंदे नें आभै,  
मैं बांवा-में भर कौभी देख्यो ।  
तूं जगै रै चमन में ई डोल्यो,  
मैं निगावां में भर कौ भी देख्यो ॥

भायला ! मुख बसै है हियं में  
क्यूं धूळ धोरां री तूं छाणै ।  
तूं फिरै है लियां अलगोजा;  
म्हारा गीत कोयलडघां ई गावै ।  
मिल्या नों साज उधारा  
जद भरणा ई ताळ मिलावै ॥

भायला ! तूं बैठ म्हारै साथै  
किशती नें ले चालां ठिकाणै ।

हा हिवड़ में भरमान घणा  
जिका कोई नी पिछाण्या ।  
ना दरदी बण'र कोई  
म्हारा सुख साज बखाण्या ॥

कैवण नें भोळी बातां  
हिव लाख बार कह गैरी ।  
घां दो सीपां रं मोत्यां री  
कर दीनी, लाखा ढेरी ॥

जे म्हारी आख्यां, सूं देखै  
तो जाण सकला सारी, ।  
अरमान दबाया मिट ज्यावै  
दुखियां री दुनियादारी ॥



थमज्या थोड़ो अब वटाऊ,  
आज कळपतो प्यार देखलें ।  
दभतु हिवड़ो, आस अळसती  
नेणां री जलघार देखलें ॥

मन कळियां मुसकाण साथ ले  
हिवड़ गडती सूळ छोडज्या ।  
लेज्या नेहा नीर नैण रो  
जीवण री वस भूल छोडज्या ॥



## वारूदी चूंतरे पर

घोळती हंसी  
दूधिया दातां नै  
हसग्यो  
नफरत रो पीवणो सांप ।  
ल्याळी वडग्या गांव में  
राडें में लरडी  
छाती नीचें बचिया लुका  
ऊभी रैयी कांप ।  
गुवाड बीचें  
खेंजडें पर मींभर नीं  
लटकें किरपाण ।  
गरब रो जाळो  
फिरग्यो आंख्यां पर  
स्याणो मिनख  
होयग्यो अजाण ।  
आंगणै उगग्यो  
सत्यानासी रो बोभो ।  
चीपाळ रें वारूदी चूंतरे पर  
गेरें लोग वातां रां बडकूल्या  
कदें कोई वावळें नै  
आयगी सिरडें  
लांपो लगाय देसी ।  
साद बूदें मानखें नै  
हजारा बरस पाछो—  
रोई में भगाय देसी ।



## इल्ली

हंस री है ल्हास  
जागग्या मुसांण  
गळ्यां नै रोकली  
नागडा कंकाळ  
श्रांघी मांय  
उडग्या कफन ।  
नैणां सूं  
निकळगी न्हेर  
भूखो पेट  
पचासगो एटम ।  
वन बन 'सीता'  
चुग री छाणा  
विकगी 'तारा'  
गुडा रै हायां  
'सावित्रि' रो सत  
तुलगयो जुवार रै वरावर ।  
मिटाया र्हे रिस्ता  
पेट रै खातर ।  
विकगयो समाज  
चांदी रो पातडी  
विकगयो जोवन  
रोटी रै टुकडा पर ।  
करसो बंद है  
नाज री बोरी में . . .  
च्याहमेर इल्ली . . .  
लाग'री सरासर ।



## कैदी भगवान

घरम रा ठेकादारां  
असीम बत्तावता—बत्तावता  
चिण दियो भगवान नें  
भीत में मांय  
लगा दियो  
स्वारथ रो ताळो ।  
सोनै-चांदी रा  
चढाया छत्तर  
पै'रायो रेसमी गोटे रो चोळो ।  
मिनखा जूण नागी  
फिरती फिरै बारें  
कफन रै तोड़ै  
अरथी है उघाड़ी ।

परमारथ रो पाठ पढावता  
दुनियां नें पाटे चढावता  
घड़ै सी तूंद में  
पचायगा लाखां रो चढावो  
घुटेइता पुजारी ।  
दो भुजा रो अनदाता  
मांसयां भरणावती  
चाटगयो पातळ ।  
डोळ्यां में कैद भगवान  
देखै कैयां ?  
देर है  
अंधेद नीं  
काई है खातळ ?

## गूँजै श्रेक नांव

जे मानै तूं  
कैणो म्हारो  
मत जाजै लंका  
मत आजै लुधियाना ।  
सोवणी सड़कां पर  
होय'री घड़ घड़  
लाज रा गाभा बगा  
ऊभो है सत्ताधारी ।  
भून दियो जोवन  
बंद है घड़कण  
पांखी री फड़ फड़  
गूँजै श्रेक नांव  
—'आतंककारी' ।

परजातंतर री  
हांट मांय  
बच दियो 'बैलट' ।  
चावळ री घाई में  
राज करै 'बैलट' ।  
दोन्यूं श्रेक सार  
जालघर अर जाफना  
मत जाजै लंका  
मत आजै लुधियाना ।



## दुकाल

भूख सँ बरळावता  
तिसायोड़ा मिनख  
आक रेया चाव

पीयग्या खंदेई री काई ।  
मरेई मिनखां री  
काढ़ ली आख्यां  
रोई में गिरजड़ा ।  
वाळवाळा पूग्या  
कदेई माळवे  
मुरदा—लासां  
खायगा गादड़ा ।

वेच दियो बेटो  
मक्का रँ दाणां में  
भूख मरतँ बाप  
हाड्यां रो ठेकादार  
जीवता ज्यानवर  
हांके चुपचाप ।

राहत रँ कामां पर  
भगा रेयो छोर्यां  
राज रो आवरसियर ।  
कर रेयो 'इस्पेशन'  
गाबरू डील रो  
नुबोडो 'इजिनियर' ।

## इलाज करावो

टीवे परला भूपड़ा  
घरती रा गूमड़ा  
आं नै छोल'र  
वयूं वगावो ।  
मिनखाचारै सूं  
इलाज करावो ।

मिनख सूं पैल्यां  
चाटगी मांष्यां  
सिकोरै री रावड़ी ।  
मरजाद है दाव पर  
पैरण रै नांव पर  
वची रैयी तागड़ी ।  
घापा थांरो वागो  
लांगटी तो पैरावो ।  
मिनखाचारै रो  
इलाज करावो ।

घूळ रा घरकूल्या  
गोबर रा वड़कूल्या  
राज री मरजी  
किता दिन धिकसी ।

डोकरी हां करै  
डावड़ी नाटै,  
कंचण सी काया  
आटै रै साटै ।  
राम री मरजी  
किता दिन धिकसी ।  
वयुं तो सरम करो  
अणूती नीं धिकावो ।  
मिनखाचारै सूं  
मिनखा रो इलाज करावो ।

## परजातंतर

परजातंतर है  
परजा रो तंत  
काढ'र बगावो  
गैलिये देस मांय  
गावदू मिनखा रै  
बटीड़ लगावो ॥

चीराये पर चरै हैं  
गुलगला गघा  
मारें दूजां रै हुलाती  
मिनख री जण नै  
चीथै, चिगदोळें  
घोळिया हाथी ।

कांचळी मांय आंधै हुयेड़ें  
संपळोटा नै,  
और दूध पावो  
गैलिये देस मांय  
गावदू मिनखा रै  
बटीड़ लगावो ॥

भूठ रो म्प्राणू द्यो  
कानून रो न्याणू द्यो  
जनता भोळी भैस नै  
ध्यावस रो निरनै द्यो  
पावस सी दारी

भरल्यो धुवारी  
हाथ जोड़ो  
दांत काढो  
पांच दिन खरचो  
पांच बरस कमावो  
'र खावो ।  
गैलियै देस मांय  
गावदू मिनखां रै  
बटीड़ लगावो ॥



अठै,

अफसर भांड  
नेता वाजीगर  
संत गूंगा  
महंत कारीगर,  
देसहाळी जनता  
साव ल्यूंकड़ी ।

आंधो विसवास  
पण घरम नीं,  
लफाजी पूरी  
पण करम नीं  
वजरवट वणग्या  
ग्वानी री पूछड़ी ।  
देस हाळी जनता  
साव ल्यूंकड़ी ॥

अठै,

राजा, भून्र्या है पालण  
रुखाना, चरारघा खेत  
चूनी, बाळ दी छान  
वाड़, खायगी खेत  
देळयां पर  
पांगरगी फूट  
निसरड़ा होग्या लठैत ।

कुण सामटसी  
विखरेड़ी कूकड़ी ।  
देस हाळी जनता  
साव ल्यूंकड़ी ॥



खेजडी रै डाळिये पर  
उळभेड़ो मिनख ।

जिणगानी -  
छोडां सी  
चिमड़ायली  
सूगली  
वेसुवादली  
टंवरिये सी लटकती  
आस गजवण ।

फाटेइ पूर मांय  
वांधीजेड़ी लुगाई -  
हाड्यां रै भारे सी  
देख री  
चाख री  
चाट री  
बासी खुरचण-।

कीसी रो सो बोटो  
काळियो भुजंग  
कुचमादी टिगर—  
नागड़ो घडंग  
घूळ न्हाय  
घूळ खाय  
काट्यां जाय  
अचपळो वचपण ।

डोळी हाळा लेवडा  
छोड़ दियो साथ  
पून रँ फरडकै सूं  
छान हुई अनाथ  
पानी चूट  
मूज कूट  
तन-मन सूं टूट  
गिरस्थी री गाडो  
गुडाय गणमण ।  
टंवरियँ सी लटकती  
आस गजबण ॥



## कुरसी

आंधी रँ ग्राम सी  
मिनकी रँ भाग ती  
आ पड़ी कुरसी ।

बैठनां ई भायलां  
रैयो नीं ध्यावस  
देण लाग्या दचचोड़ा ।  
सींचण लाग्या टांग  
कुरसी अर असवार री  
सरूपोत संगळियां ई  
देय दीन्या गोडा ।

कुरसी थाकगी पण  
सवार थकयो नीं ।  
गाळ्यां सुणली पण  
मूं सूं वकयो नीं ।  
वांट दिया भायला ने  
सीमट अर कोटा ।  
दारू रा ठेका  
बांध अर सडकां रा  
काम घण मोटा ।  
कांड्यां अफसरां ने  
दे दीनी छूट ।  
धारलीनी नकटाई  
च्यारू मेर लूट ।  
देस अर मिनख में  
फरक है कांई ।  
देस री पूंजी

चढ़ावो थारै खातें में  
थारी ई कमाई ।

विरोधी उड़ग्या  
हिरणां रै खोज ज्यूं  
हाथी रै खोज में  
सहै रो खोज है ।

अब कुरसी रै पायां में  
भरीजग्यो सीसो  
वैठणियां—गुड़ाणियां  
दोन्यां रै ई मौज है ।



## सरणाटो

आकळ वाकळ हुयो मानखो  
भागरघो है  
डावा चक  
घोळं दोपारां  
ओढाळ दिया दरुजा  
बारी-भरोखा  
लागगी कूटी ।

सनी सडकां  
घावरी हुयेड़ी बिलाई  
हिङकेड़ा गंडक  
गेऊं रा खेतां मांय  
कुण वायगो विसबेल  
जे'री बूटी ।

सांप निकळरघो है  
पाछें कूटता रीज्यो लीक  
लाय लाग्या पछे  
कुवो खोदवा री  
लेता रीज्यो सीख ।  
कागला री कांय कांय  
बंदकां री घांय घांय  
तोड़ दियो सरणाटो ।

ऊंची कर नाड़  
बाको फाड़  
मिनखां  
पाछो

जड़ लीन्यो भांटो ।  
मरणिमै रा गुण हूँदधां  
मारणिमै रा  
खोज ।

सोक संदेस  
बळगताऊ वातां  
चलताऊ काम  
नितरोज ।



## देस रो चितराम

लारला चाळीस वरस सूं  
सूंघो पड़चो हूं  
कुरड़ी पर  
ट्टीजेडो  
कुटीजेडो  
कुळतो—हळतो  
दोनूं हाथां रै चढ़ाया पलास्टर  
'तुण्टीकरण' रा ।

पाड़ीसी री भिड़की  
घरांळी कुचमाद  
देख'र-सुण'र  
लीलाड़ पर पड़ै है सळवटां  
जात री  
घरम री ।

छाती पर लागें है घमीड़ा  
हथगोळा-ग्रनेड रा  
बंदूका री गोळियां  
बींब दीनी पांसळ्यां  
फेर भी जीवतो हूं  
म्हांरी भी छाती देख !

दाणो नीं  
पाणी नीं  
पेट रीतो

छपनिये दूकाळसूं  
गोम्बा ग्याय काटरघो भिखे रा दि  
वा'वं हैं भाठा

लोग भासा रै नांव परं ।  
फोड़ रैया गोडा  
दे रैया पांव पर ।  
पांगळा गघा भी  
पांवरा गंडक भी  
मनै बिसरावै ।  
नेड़ै घाय  
सूँघ'र चल्या जाव ।  
पड़्यो कुरड़ी पर  
करूँ बिसराम ।  
में ईं देस रो  
फाटेड़ो चितराम ।

६



## सांड

ग्राछे भलै खेत नै  
खायग्या  
आवखा सांड ।  
अबौं भी  
अठै कठै  
रैया गुवाड़ माय टांड ।  
लोगां नै कहघो  
आं नै कैयां भी डाटो ।  
बंद करो पूजणो  
बंद करो बांटो ।  
रगदोळ दी खूरा सूं  
मिनखां री माटी  
घालदघो गळांवडो,  
वांघदयो घेटी ।

उछाळ दिया सींगा सूं  
आदमी रा गाभा ।  
मिनखा नै भूड रैया  
जलमजात नागा ।  
'पिंजरापोळ' जाय'र  
पळज्यासी दूणा ।  
चरज्यासी देस रा  
बचेड़ता कूणा ।  
अक दिन तो  
होणो पड़सी  
आपा नै ई अणखावणो ।  
मांठ सूं जे जीवणो  
तो द्यो, अबौई  
आं रै दावणो ।

## डोड काग

पाकेड़ा बाळ  
ढळती उमर ।  
गडगी आस्यां  
कुडगी कमर ।  
डोल गयो वो'ज ।  
मलपूंछो बाघणियो  
“मांगू” हुयो  
मचली री तीजी ईस ।

सिराणै वैठी  
अघबूढी 'रामकळी'  
टंटोळें  
आंगणै रा कांकरा ।  
दूध रें टोपें खातर  
रबोडें छाती  
नानियो टिंगर,  
विना लगावण  
चिगलीज्या कोनी  
सूकेडता खांखरा ।

चाणचुकी “घापूडी”  
होयगी जवान ।  
ओदस्या लुगायां  
लगावण लागगी  
डोळ्यां रें कान ।  
गिरजडां सूं लुकें

कदताणी मांस ।  
फाटेई न्यातणें सूं  
जोवन रैया भांक ।  
चेंळ पर 'डोड काग'  
पलार रैया चांच ।  
भपट'र उडवा रो  
ग्रोसर रैया ताक ।



## गुम्योड़ो ईसर

जद कळपणा ढव्यू रे लटूम  
में उड़ज्याळ आभं  
अर देखूं घरती री सांचोट  
कीडीनगरै ज्यूं दीखै  
हाथ उठाघोड़ा चालता कंकाळ ।  
नीं करर्या टा-टा  
नी दे र्या आसीरवाद  
मनै काढ रैया गाळ,  
होवै भाळम भाळ ।  
कैवै -  
अरै ओ गैल सफा  
हाल मतां जा  
अक वोट तो देज्या ।  
भावां री नाव सूं कूद'र  
डूबकी लगाळं साच रै सागर  
ल्हादै वडी माछळी  
छोटी नै खांवती ।  
पण—  
मगरमछा सूं  
खुद नै बचावती ।  
अर, मिन्नर—मैजीद री छात पर  
टरडावणिया मीडका  
डूबग्या  
पाप री तळछट में ।  
म्हारली  
वीच भरेडी आंख्यां  
ढूंड'री है—  
गुमेड़तै ईसर नै ।



## गत-विगत

अंतरिक्ष जाती ज्यूं अकेले  
आगला सपना देखतो  
चाल पडूं जद, तावळो  
'स्ट्रीट अरचेट' जाण'र  
सरमावं 'भलै' घरां री डावडो ।  
पान री दूकान पर  
दे देवें उपावी,  
'आवारा आसिक' री  
घोसियो पनवाडी ।

पकडले गुद्दी  
टूरियो  
जियां  
करजदार हूं उण रै  
वाप रो ।

दसवीं में सातवी वार हुयो पास ।  
नेता जी रो बवलू  
सूत न कपास  
पण—  
वणग्यो मोटो अफसर ।  
जद सोचं  
एम. ए. री डिग्री नै  
दिखादघू 'लाइटर' ।  
सडक पर सोदूं माटी  
ओवरसियर दे आठानी  
खैरात ज्यूं टिकावें  
पूरी पगार मांगता ई

टल्ली लगावै ।  
 भायला भी म्हा सुं  
 'बोर' नीं होवणो चावै ।  
 होवतो अफसर  
 गाड़ी ल्यावता—  
 फोन आघता  
 खानै पर बुलावता  
 होतो जे चपड़ासी  
 बीड़ी तो पावता ।  
 घरांळां भी  
 काटरधा कवळा  
 कदै  
 जोरामरदी पूगज्याऊ  
 बाको फाड़ देसी  
 जोधपुरी  
 जूतै री ज्युं ।



## सूखो-समदर

टोपे री बेकळू रेत पर  
बैठ्यो मैं

आंता में हाथ उळ्हाय ।  
रिती ओजरी मांय

ढूँढूँ हूँ

मिनख जात री पिछाण

गोड़ा बीचै

नाड़ दवाय ।

उकळतो डील

सुरड़ती सांसा,

भींचेड़ी मुट्टी

उफणती आसा,

भरणेटी खांवतो माथो

कदतांणी राखसी

मनडो बिलमाय ।

सूखेहें समदर मांय

ढूँढूँ हूँ मैं

संख अर सीप

सीपा -

पपइयें री ज्यूं

तरसैं हैं

विरखा रै टोपे नै

नीं बरसी तो

सीपां सूं

ढळै ला आंसू ।

ध्रितरास्टर ज्यं

आंधो हुयो मैं,

बेकळ् मांय टंटोळ'र  
 हेरू हं  
 संखा रो ढिगलो  
 बजादे पांचजन्य  
 जे कोई किसन आय ।  
 पण ओ  
 'द्वार' नी 'कळ-जुग' है  
 अठे मिनख नीं,  
 बुग है  
 कानां माय पज'र  
 पूग ज्याय माळ्यां  
 माइक रे चिप'र  
 बजवाल ताळ्यां,  
 बुगा चिपती रंसी  
 संख -  
 बिना बजाये वाजैला ।  
 इण सूखे समदर मांय  
 पांवरी सांढा रो टोळो है  
 दस बीच भैया  
 मरजी हुवे  
 जियां ई गाजैला ।  
 म्हारलो खरसणो सो डील  
 पडधो रंसी  
 भैयां ई  
 बाईटा खाय ।  
 हौठां नै चबाय  
 हाथ आंतां में उळभाय,  
 नाइ गोडा में दबाय ।





# चितराम

संज्या खूटी पर टंग ज्यावै  
अ चितराम ।  
न्यौळीनुमा पेंट  
चितकबरो मेखळ्यो  
संतरी सूं मंतरी तांणी  
सरणबट्ट देखल्यो ।  
घर हुवें चायें दपतर  
ठेको हुवें चायें मिन्नर  
चायें अफसर रो मकान  
चाय पान री दुकान  
रात नै सगळें मिल ज्यावै  
अ चितराम ।  
चूनो लगावता,  
थूक विलोवता  
मजनु कट  
विखरी लट  
डाडी मूछ सफाचट  
अडें गोडा  
भिडें टंट  
अकल रा बजरबट  
निकल्योडी पांसळी  
बैठेडा जावू  
दीखत रा हावू : : -  
अ हें वावू  
दिन मायें राज चलावें ;  
अ चितराम ।



## जेबकतरा

पांच बजताई ।  
सड़क पर भेळा हुया  
'गुड इवनिंग'  
'ओ. के' हुई ।  
बढ़गया काफी हाउस  
चाय-चिलम पीई ।  
दफतर री खेम-कुसळ पूछी  
कलम री छुरी स्क्  
भलें मिनखां री  
कुण कतरी गोज काष्टी ।  
साब री  
कुण सें सुणी  
घणी  
खरी खाटी ।  
जका नित  
दुनियां पर आंकल ज्यं टांडे ।  
गिट पिट भंगरेजी बोलें  
जैपरिया आंक मांडे ।  
पजेडी आंख  
निकळेडी नाक  
बां में सें  
कुण हुयो फिट  
कुण अणफिट  
गाळ सुणवा में  
उल्लू बणवा में  
बिल आयां पैल्यां  
सड़क पर बीडी सिलगाई ।

बैरै री गाल सुणी  
बैरा वणग्या  
गाळ्यां रै नाळा रो  
थाग काई ?  
दिल दरयाव हो  
अफसरां री सुण  
सौ अर सतरा ।  
अँ हँ मुफतिया भायला  
असल जेब कतरा ।



## स्यारी स्याणप

थारली दियोडी दिलासा नं  
चाटतो चाटतो  
हुग्यो में  
सुख'र डांखळो  
थारली उतावळी अणचींती मदद री  
उम्मेदां मांय ऊंध'र  
हुग्यो में  
साव पांगळो ।

तूं रोजीना पुरसै है मन  
थ्यावस री सुखी पातळ  
अचै ठा.पडग्यो  
थारली बातां रो  
थोधी थुथकारी सुं  
उतरें नीं भूख री निजर,  
इलाज दूढणो पडसी  
मांयली घातां रो ।  
लूले मानखे दाई  
मनै तूं पंकडा दी,  
नेम-घरमरी  
काखळवाई— "सांगडी" ।  
स्यारी स्याणप संभाळ  
थांरी, थारं ई कनै,  
जमानै नै चेतवतो में  
उठावूं लो डांगडी ।



## रगत रो बेस

बोखा वारणा  
अर फूटेड आळा न  
ओ ढा र्या हो  
रेशमी पड़दा ।  
कफण न  
उडीक'री लास  
नागा फिर  
लाखीणा लड़दा ।  
काटर्या हो  
मिनख री नाड़,  
सीचर्या हो  
ज'री आक,  
अकडोड्या राहाबू  
पैकां री ज्युं  
खिड'र पूगग्या  
सगळें देस ।  
थोर सजगी गमला मांय,  
मिनख कां ई  
बांठ - बणराय भी  
बदल लियो भेस ।  
धतूरें रा फूल  
बादळ रा चूखा वण  
खिडर्या आभे,  
गेलो हुयो मिनख  
भूलग्या अपणेंस ।  
जाय र्या कुगळ  
कोई ठामें तो ठामें,  
नी सामेळें सिरोपाव  
जठें पै'रज्यो,  
रगत रो बेस ।

पाती! अके स्याम रै नांव

कागज धारै नांव  
स्याम तूं  
सावळ वांचे ।  
माखन चोरी करतो करतो,  
बणग्यो तूं 'नटनागर' ।

तिस्या मरता  
फिरै गुवाळिया  
कोसां ताणी लियां हाथ में,  
रिती-सूखी गागर ।

गुवाळ-वाळ सहे  
रितै-पेट ढूढंरघा  
रेत में अन्न रा दाणा ।

'वंसीवट' नै भूल  
गोपियां चुग री छाणा ।

गमगी मुरली रीं टेर  
रुळपा सहे मोवन गोंणा ।

'कामवन' रै मांय भटकतो  
फिरै मानखो,  
'कंसा' री भरमार  
वचावां कठै टावरी ।

तूं होग्यो 'रणछोड़'  
वसाई बीच समद रै मांय द्वारका,  
म्हारी टूटै छान  
राकसां वाळी टापरी ।

अकेर विरज रें मांय  
कानूडा  
ओजूं आजै ।

कागद थारै नांव  
स्याम तूं  
सावळ वांचे ।

तूं नाथ्यो काळियो नाग  
म्हे सांपां नें दूधो प्यावां ।

तूं पाळी होसी गाय  
म्हे गंडकां नें रोज नुहावां ।

थारो रंग सावळो  
म्हारो तो मन भी काळो ।

'कुरुछेतर' रें बीच  
मांड रेंया करू-पांडू  
श्रोजूं पाळो ।

धेकर फेरूं आय  
'पांचजन्य' रें  
फूंक लगाजे ।

कागद थारै नांव  
स्याम तूं  
सूल्यां वांचे ।







